

**SHARMA HARDWARE**  
Sharma Gali, SJ Road  
Athgaon, Guwahati-01  
98648-02947

# विकसित भारत समाचार

वर्ष : 11 | अंक : 67 | गुवाहाटी | शुक्रवार, 4 अक्टूबर, 2024 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

आध्यात्मिकता से स्वच्छ और स्वस्थ समाज  
वैश्विक शिखर सम्मेलन का ...

पेज 2

असम में बाल विवाह रोकथाम पर एक  
दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित

पेज 3

भूपेंद्र हुड्डा नहीं दे पा रहे  
सवालों का जवाब : सीएम

पेज 5

29वीं फेनेस्टा ओपन राष्ट्रीय टेनिस  
चैम्पियनशिप के क्वार्टर फाइनल ...

पेज 7

## दुर्गा पूजा : प्रशासन ने जारी किए दिशा-निर्देश



**गुवाहाटी।** गुवाहाटी में दुर्गा पूजा समारोह से पहले, कामरूप (मेट्रो) जिला प्रशासन ने पूजा उत्सव समितियों को एक सलाह जारी की है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगाने, क्षेत्रों को तंबाकू और शराब मुक्त क्षेत्र घोषित करने सहित कई निर्देश शामिल हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने गुरुवार को त्योहार के दौरान एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने और बनाए रखने के लिए 400 से अधिक पूजा समारोह समितियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। कामरूप (मेट्रो) के जिला आयुक्त सुमित सत्तावन ने एएनआई को बताया कि पूजा समितियों के साथ बैठक हुई और प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं कि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। सुमित सत्तावन

ने कहा कि हम पूजा समितियों को पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की सलाह देते हैं और कई समितियों ने हमें इसका पालन करने का आश्वासन दिया है। पुलिस प्रशासन त्योहार के दौरान यातायात सलाह भी जारी करेगा। हम 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा मनाते जा रहे हैं। हमारे प्रशासन की ओर से, हमने गुवाहाटी की 400 से अधिक पूजा समितियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। हम विभिन्न पूजा पंडालों में दुर्गा पूजा मनाते समय अपनाए जाने वाले उपायों पर चर्चा करते हैं। सभी पूजा समितियों के पदाधिकारियों को पुलिस प्रशासन के साथ-साथ नागरिक प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना है कि दिग्ग बराह ने कहा। भारत के पूर्वी

-शेष पृष्ठ दो पर

## 404 साल की परंपरा : गौरीपुर की शाही दुर्गा पूजा शुरू

**धुबड़ी।** गौरीपुर के ऐतिहासिक शहर में गुरुवार को 404 साल पुरानी गौरीपुर राजघराने की दुर्गा पूजा शुरू हो गई है। महामाया मंदिर में आयोजित होने वाला यह सदियों पुराना त्योहार इस क्षेत्र में सांस्कृतिक विरासत और सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। सुबह ठीक 7 बजे, भक्तगण शोला पीठ (एक प्रकार का ईख) से बनी जटिल रूप से तैयार की गई देवी दुर्गा की मूर्ति और अष्टधातु (आठ धातुओं का मिश्रण) से बनी स्थायी मूर्ति की पारंपरिक शोभायात्रा देखने के लिए एकत्र हुए। यह शोभायात्रा मां महामाया स्थायी मंदिर से महामाया मैदान स्थित दुर्गा मंदिर तक गई। राजपुरोहित अरुणोचन चक्रवर्ती और पुजारी बुद्ध रॉय ने जुलूस का नेतृत्व किया, जिसमें गौरीपुर महामाया मंदिर प्रबंध



समिति के अध्यक्ष और राजपरिवार के प्रतिष्ठित सदस्य प्रवीर कुमार बरुआ तथा जिले भर से आए श्रद्धालु शामिल हुए। प्रवीर कुमार बरुआ ने कहा कि इस सदियों पुरानी परंपरा को बनाए

रखना बहुत गर्व और जिम्मेदारी की बात है। यह देखकर खुशी होती है कि समुदाय सदियों से हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते और उसे बनाए रखने के लिए एक साथ आया है। इस दुर्गा पूजा की शुरुआत 1620 में हुई थी। 1850 में राजा प्रताप चंद्र बरुआ ने इस त्योहार को रंगमती से गौरीपुर स्थानांतरित कर दिया और राजपरिवार की पूजनीय कुलदेवी महामाया को यहां लाया। महामाया की पूजा तो पूरे साल की जाती है, लेकिन इस स्थानांतरण के बाद से देवी दुर्गा की शरदकालीन पूजा एक महत्वपूर्ण आयोजन बन गई है। इस त्योहार का एक अनूठा पहलू कुलदेवी महामाया और अष्टधातु और शोला पीठ से बनी दुर्गा प्रतिमाओं

-शेष पृष्ठ दो पर

## कालकाजी में नवरात्रि पूजा के दौरान पंडाल में उतरा करंट, एक की मौत, सात घायल

**नई दिल्ली।** दिल्ली के कालकाजी में एक बड़ा हादसा हुआ। नवरात्रि पूजा के दौरान दुर्गा पूजा पंडाल में करंट फैल गया। करंट को चपेट में आने से एक नौवीं क्लास में पढ़ने वाले लड़के की मौत हो गई। वहीं सात लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जांच के दौरान पता चला कि नवरात्रि के दौरान हेल्थोवन लाइट लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बिजली का तार टूट गया था और लोहे की रैलिंग के संपर्क में आ गया था, जिससे यह हादसा हुआ। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, यह हादसा 2 और 3 अक्टूबर को देर



-शेष पृष्ठ दो पर

## आरनई सहित बोड़ो जनजाति के आठ उत्पादों को मिला जीआई टैग

**गुवाहाटी।** चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने असम के आठ उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया है, जिनमें पारंपरिक खाद्य पदार्थ और चावल से बनी बीयर की कई अनूठी किस्में शामिल हैं। बोड़ो पारंपरिक क्लअर्स एसोसिएशन ने चावल से बनी बीयर की तीन किस्मों के लिए सफलतापूर्वक जीआई टैग हासिल कर लिया है। बोड़ो समुदाय द्वारा बनाई जाने वाली चावल से बनी बीयर की अन्य किस्मों की तुलना में पहली किस्म बोड़ो जौ ग्वारन में अल्कोहल की मात्रा सबसे अधिक



(लगभग 16.11 प्रतिशत) है। दूसरा प्रकार, मैन्ना जौ बिडवी, जिसे स्थानीय रूप से मैन्ना जू बिडवी या मैन्ना जू बिडवी के नाम से जाना जाता है, ज्यादातर बोड़ो जनजातियों द्वारा सम्मानित और स्वागत पेय के रूप में परोसा जाता है। इसे कम पानी के साथ आधे पके हुए चावल (मैरिंग) को किण्वित करके और उसमें थोड़ा अमाओ (खमीर का एक संभावित स्रोत) डालकर तैयार किया जाता है। तीसरा प्रकार, जिसे बोड़ो जौ गिशी कहा जाता है, वह भी पारंपरिक रूप से किण्वित

-शेष पृष्ठ दो पर

## पलवल : हिंदुओं को बांटकर हरियाणा हरियाणा : थमा चुनाव प्रचार, 5 को सभी सीटों पर होगा मतदान

**पलवल (हिंस)।** हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने पलवल से भाजपा उम्मीदवार गौरव गौतम के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रदेश का क्या होगा, यह हथौने और नुंह से कांग्रेस प्रत्याशियों की रैली में लगे पाकिस्तान जंडाबाद के नारों से साबित हो गया। अगर बाप-बेटे की सरकार बनी तो यह पाकिस्तान



जंडाबाद यहां नहीं बल्कि पलवल और फिर पूरे हरियाणा में फैलेगा। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं को बांटकर उन्हें कमजोर कर रही है। हिमंत है तो मुसलमानों को बांटकर दिखाएंगे। विधानसभा चुनाव में बाप-बेटे की जोड़ी को हराना है। केंद्र में मां-बेटे की सरकार नहीं बनी, वैसे ही हरियाणा में भी बाप-बेटे की सरकार नहीं बनेगी। असम सीएम ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को सत्ता देना चाहती है। कांग्रेस

-शेष पृष्ठ दो पर

**चंडीगढ़।** हरियाणा में चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। 5 अक्टूबर को 90 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। भाजपा को लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में हैं। वहीं, कांग्रेस को एक दशक के लंबे अंतराल के बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद है। हरियाणा में 90 सीटें हैं जहां एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर मतदान 5 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। 18 अक्टूबर को चुनावी नतीजे आएंगे। हरियाणा में 8,821 शतकवर्षों सहित दो करोड़ से अधिक मतदाता अपने मतदातिका कार प्रयोग करने के पात्र हैं। शाम छह बजे चुनाव प्रचार समाप्त होने से कुछ घंटे पहले, प्रमुख दलों



भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप), इनेलो-बसपा और जजपा-आजाद समाज पार्टी ने रैलियों और रोड शो कर मतदाताओं को आकर्षित करने के प्रयास किए। अधिकारियों के अनुसार

वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों में सावित्री जितेंद्र (हिसार), रंजीत चौटाला (राजिया) और चित्रा सरवारा (अंबाला कैंट) शामिल हैं। भाजपा ने अपने चुनाव प्रचार में

कुल 20,629 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनावी मैदान में कुल 1031 उम्मीदवार हैं, जिनमें 101 महिलाएं हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (लाडवा), विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा (गढ़ी सांपला-किलोई), इनेलो के अभय सिंह चौटाला (एलनाबाद), जजपा के दुष्यंत चौटाला (उचाना कला), भाजपा के अनिल विज (अंबाला कैंट) और ओपी धनखड़ (बादली) और कांग्रेस की विनेश फोंगट (जुलाना) शामिल हैं।

-शेष पृष्ठ दो पर

**S.S. Traders**  
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.  
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05  
97079-99344

**सुप्रभात**  
शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें।  
- आचार्य चाणक्य

**न्यूज गैलरी**  
अपहृत युवकों को उग्रवादियों ने छोड़ा

**इंफाल (हि.स.)।** कुकी उग्रवादियों ने मैतई समुदाय के अपहृत दो युवकों को गुरुवार सुबह सकुशल मुक्त कर दिया। कुकी उग्रवादियों ने इन दो युवकों का विगत 27 सितंबर को अपहरण कर लिया था। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 27 सितंबर को कांगपोकपी से अपहृत किए गए दो युवकों

-शेष पृष्ठ दो पर

**जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में 63.88 % मतदान**

**नई दिल्ली (हि.स.)।** जम्मू-कश्मीर में संपन्न हुए तीन चरणों के मतदान का प्रतिशत पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 63.88 प्रतिशत रहा। तीसरे चरण में कुल 69.69 प्रतिशत मतदान हुआ। इस चरण की 40 सीटों पर महिलाओं का मत प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले अधिक रहा है। हाल के लोकसभा चुनाव में राज्य में 58.58 प्रतिशत मतदान हुआ था। जम्मू-कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों के लिए 18 एवं 25 सितंबर

-शेष पृष्ठ दो पर

## मैरिल रेप को अपराध मानने के खिलाफ केंद्र सरकार यह कानूनी से ज्यादा सामाजिक : सुप्रीम कोर्ट

**नई दिल्ली।** केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग करने वाली याचिकाओं का विरोध किया गया है। केंद्र ने कहा कि यौन संबंध पति-पत्नी के बीच संबंधों के कई पहलुओं में से एक है, जिस पर उनके विवाह की नींव टिकी होती है। केंद्र सरकार ने जोर देकर कहा कि यह मुद्दा कानूनी से अधिक सामाजिक है। इसका समाज पर सीधा असर पड़ता है। इसके साथ



-शेष पृष्ठ दो पर

## इजरायल का हिजबुल्लाह को करारा जवाब, हवाई हमले में 46 की मौत

**बेरुत।** लेबनान के दक्षिणी क्षेत्र में इजरायली सेना और हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई जारी है। इजरायली सेना ने गुरुवार की लड़ाई में 15 लड़ाकों को मारने का दावा किया है। जबकि बेरुत में इजरायल के हवाई हमले में हिजबुल्लाह के दो स्वास्थ्यकर्मियों समेत सात कर्मचारी मारे गए हैं। हिजबुल्लाह के गढ़ बेरुत के उपनगर दाहिरे में भी इजरायल ने मिसाइल हमले किए हैं। लेबनान में विभिन्न स्थानों पर इजरायली हमलों में कुल 46 लोग मारे गए हैं। इजरायल में हिजबुल्लाह



के भी राकेट हमले जारी हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क में हिजबुल्लाह प्रमुख रहे हसन नसरल्लाह के दामाद की इजरायल के हवाई हमले में मारे

-शेष पृष्ठ दो पर

## हरियाणा के देशभक्त लोग कांग्रेस को स्वीकार नहीं करेंगे : पीएम

**नई दिल्ली (हि.स.)।** भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर विश्वास जताया और कहा कि राज्य के देशभक्त लोग कांग्रेस की विभाजनकारी और नकारात्मक राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार खत्म होने से कुछ समय पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि अब से कुछ देर में हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। बोते कुछ दिनों में मैंने पूरे राज्य की यात्रा की है।



-शेष पृष्ठ दो पर

## कट्टरपंथियों का ग्रेटर बांग्लादेश सपना भारत के लिए कड़ी चेतावनी

**ढाका।** बांग्लादेश का राजनीतिक परिदृश्य वर्तमान में काफी उथल-पुथल में है। अंतरिम सरकार के तहत इस्लामिक दलों की ताकत बढ़ रही है। जामात पार्टी एक दशक के प्रतिबंध के बाद फिर से चुनावी राजनीति में लौट रही है। ऐसे हालात में, देश के पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है और यह जानना जरूरी है कि ढाका में राजनीतिक शक्ति में बदलाव से इन संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल, जिसमें निर्वाचित प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाया गया, ने देश के



विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं के बारे में चिंताओं को फिर से जन्म दिया है। कट्टर इस्लामी समूहों ने, जो अब सत्ता में हैं, खुले तौर पर ग्रेटर

बांग्लादेश की स्थापना की इच्छा व्यक्त की है, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्से शामिल होंगे। प्रस्तावित ग्रेटर बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड और म्यांमार के कुछ भाग शामिल होंगे। हालांकि बांग्लादेश के पास सीधे भारत पर हमला करने की सैन्य क्षमता

थम नहीं रहा हिंदुओं पर अत्याचार, तोड़ी गई दुर्गा मूर्ति

**ढाका।** बांग्लादेश में तख्तापलट और अंतरिम सरकार के गठन के बाद से हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों को निशाने बनाने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अब ऐसी ही एक और घटना सामने आई है। बांग्लादेश में मंदिरों पर हमला किया गया है। इतना ही नहीं मां दुर्गा की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया है। ताजा

-शेष पृष्ठ दो पर

## संविधान को खत्म करना चाहती है भाजपा : राहुल

**नारनौल (हि.स.)।** कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा मीडिया को डराती है और संविधान पर हमला करती है। उन्होंने कहा कि देश की संस्थाएं निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए। संस्थाएं किसी एक पार्टी या एक आदमी की ना हो। भाजपा ने हर संस्थाओं में अपने लोगों को शामिल किया हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को महेंद्रगढ़ में विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद के.सी. वेणुगोपाल, राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष टिकाराम जूली, सांसद जितेंद्र सिंह सहित महेंद्रगढ़ जिला के चारों विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी भी मौजूद थे।



-शेष पृष्ठ दो पर

## CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact
**97070-14771**
**86382-00107**

### MURTI AVAILABLE

Available all kinds of Marble & White Metal Murties, Ganesh Laxmi, Radha Krishna, Bishnu-Laxmi, Hanuman, Maa Durga, Saraswati, Shiviling, Nandi etc.
**ARTCLE WORLD,**
S-29C, 2nd Floor, Shoppers Point, Fancy Bazar, Guwahati-01, Ph. : 94350-48866, 94018-06952

## अशोक तंवर फिर कांग्रेसी हुए

**महेंद्रगढ़।** हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी हरियाणा पहुंचे। यहां उन्होंने महेंद्रगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। साथ ही यहां भाजपा की टिकट पर सिरसा से लोकसभा चुनाव लड़ चुके अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए। तंवर को राहुल गांधी की मौजूदगी में भूपेंद्र हुड्डा ने पार्टी का पटका पहना कर स्वागत किया। बता दें कि एक तरह से अशोक तंवर की घर वापसी हुई है। कुछ साल पहले अंदरूनी कलह के चलते कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वहीं अब एक बार विधानसभा चुनाव की वोटिंग से तंवर कांग्रेस ज्वाइन करके सभी को चौंका दिया है।

# आध्यात्मिकता से स्वच्छ और स्वस्थ समाज वैश्विक शिखर सम्मेलन का आगाज करेंगी राष्ट्रपति

**सिरोही ( हि.स. )**। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार शाम आंबू रोड पहुंचीं। शुक्रवार को वे आध्यात्मिकता से स्वच्छ और स्वस्थ समाज वैश्विक शिखर सम्मेलन का आगाज करेंगी। मुर्मु का यह दूसरा दौरा है। वे सेना के विशेष विमान से मानपुर हवाई पट्टी पहुंचीं, जहां राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागदे, आईजी, जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी, एसपी अनिल कुमर और ब्रह्माकुमारी संस्थान की ओर से हैदराबाद की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजली बहन ने उनका स्वागत किया। यहां से सुरक्षा-व्यवस्था के बीच राष्ट्रपति का

काफिला सीधे शांतिवन के मान सरोवर परिसर पहुंचा। जहां वे रत्रि विश्राम करेंगी। राष्ट्रपति की सुरक्षा में मानपुर हवाई पट्टी से लेकर मान सरोवर परिसर तक जगह-जगह पुलिस जवान तैनात किए गए। वहीं मान सरोवर में हाई लेवल की सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति के मान सरोवर पहुंचने पर कायदेकारी सचिव बीके.डॉ. मुरुंजय भाई, सिक्योरिटी के प्रभारी कर्नल सती सिंह, आवास-निवास के प्रभारी बीके देव भाई, वरिष्ठ राजयोगी बीके अवतार भाई सहित वरिष्ठ बीके भाई-बहनों ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति

शुक्रवार सुबह 9.30 बजे शांतिवन के डायमंड हाल में आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगी। आध्यात्मिकता द्वारा स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज विषय पर आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य समाज को स्वच्छता और स्वस्थता का संदेश देना है। इस मौके पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागदे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुबह से शाम तक लाल बत्ती की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती रहीं।

जिला प्रशासन ने हवाई पट् 2टी से राष्ट्रपति के विश्राम स्थल तक के लिए विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए थे। सुरक्षा के लिहाज से रास्ते में आने वाले सभी संदिग्ध या सुरक्षा में बाधक चीजों को हटया गया। वहीं शांतिवन में जगह-जगह जवान तैनात किए गए हैं। वैश्विक शिखर सम्मेलन पर कायदे के लिए अहम संदेश से विशेष रूप से फूल मंगाए गए हैं। वहीं कोलकाता से आए कलाकारों द्वारा डायमंड हाल को सजाया गया है। इसमें खसकर स्टेज को आकर्षक लुक दिया गया है। यहीं से राष्ट्रपति द्वारा सम्मेलन का शुभारंभ किया जाएगा।

## धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका ने उठाई उंगली भारत ने कहा- अपने गिरेबान में झांकें

**नई दिल्ली।** अमेरिका ने एक बार फिर भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर सवाल उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर चिंता जताते हुए परोक्ष तौर पर भारत के खिलाफ उठाये जाने वाले कदमों के बारे में भी बताया गया है। यह रिपोर्ट विदेश मंत्री एन जयशंकर की वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटीनी ब्लिंकन के बीच हुई द्विपक्षीय आधिकारिक बैठक के कुछ ही घंटे के बाद जारी की गई है। जानकार इस मध्यावधि रिपोर्ट, इसकी भाषा और समय ( जब भारतीय विदेश मंत्री अमेरिका में हैं) को लेकर हाल के महीनों में भारत पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। वहीं भारत ने सख्ती से जवाब देते हुए कहा कि पक्षपाती और राजनीतिक एजेंडा चलाने की बजाय इस संगठन को अमेरिका में मानवाधिकार के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। एक तरफ अमेरिका भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहा है लेकिन साथ ही रूस पर तेल खरीदने, खालिस्तान

समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नु की हत्या की कथित साजिश व धार्मिक आजादी जैसे मुद्दे पर दबाव भी बनाने की कोशिश करता रहा है। यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट में नफरती भाषणों, गलत सूचनाओं के प्रसार और सरकारी अधिकारियों की तरफ से धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ उकसाने के मामलों का भी जिक्र है। इसने वर्ष 2024 की यूएससीआईआरएफ की सालाना रिपोर्ट में अमेरिकी विदेश मंत्रालय को भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की खराब स्थिति के संदर्भ में दी गई सिफारिशों का भी जिक्र किया गया है। इसके तहत धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ काम करने वाले भारतीय अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने, अमेरिका सरकार की भारत के साथ होने वाले रक्षा सौदे की नीति में धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाले शर्तों को शामिल करने की बात कही गई है। वहीं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि यूएससीआईआरएफ घटनाओं को तौड़ मरोड़ कर पेश करता है। उसे इस तरह का एजेंडा चलाने की बजाय अमेरिका के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए।

<i>No.SCDB/15<sup>th</sup> FC-504/pt-II/2021-22/589</i>	<i>Date 24/09/2024</i>										
<b>SHORT NOTICE INVITING TENDER</b>											
Sealed tender affixing a non refundable court fee stamp of Rs. 8.25 (Rupees eight & paise twenty five) only with a validity period of 180 days, which will subsequently to be converted and drawn up in the printed F-2 form are invited from the registered contractors of Class-I (A, B, C), Class-II and III category of Assam PWD (Roads & Building), according to their eligibility for submitting tenders for the works under 15 <sup>th</sup> FC (untied Grant) for the year 2023-24 during 2024-25 as stated below. The tenders will be received by the undersigned up to 1.30 PM on 15/10/2024 and will be opened on the same date & place at 2.P.M.											
<table> <tbody><tr> <th>Sl. No.</th> <th>Name of works</th> <th>Estimate Amount</th> <th>Tender Value</th> <th>Time of completion</th></tr> <tr> <td>1</td> <td>Const. of RCC Box culvert at Edenbari village road</td> <td>Rs. 5,00,000/-</td> <td>Rs. 4,95,000/-</td> <td>3 month</td></tr> </tbody></table>	Sl. No.	Name of works	Estimate Amount	Tender Value	Time of completion	1	Const. of RCC Box culvert at Edenbari village road	Rs. 5,00,000/-	Rs. 4,95,000/-	3 month	
Sl. No.	Name of works	Estimate Amount	Tender Value	Time of completion							
1	Const. of RCC Box culvert at Edenbari village road	Rs. 5,00,000/-	Rs. 4,95,000/-	3 month							
Details NIT may be seen in all working days during office hours in the office of the undersigned. Tender papers will be issued to the contractors or their authorized representatives from 23/09/2024 to 15/10/2024 in the office of the undersigned on payment of 0.03% cost of tender paper in the form of demand draft/Bankers Cheque from any Nationalized Bank duly pledged in favour of the Principal Secretary, BTC, Kokrajhar, Payable at Kokrajhar.											
	Sd/- Block Development Officer, Sidli-Chirang Dev. Block, Sidli										
<i>TPR(BTC)/C/2024-25/653</i>											

## पृष्ठ एक का शेष

और ओडला जैसी चीजें शामिल हैं। इस ख़ास मौके पर असम और बीटीआर के लोगों को बधाई। विशेष रूप से, कई बोड़ो वस्तुओं को पहले जीआई टैग दिया गया था, जिनमें बोड़ो केराडापिनी, गोंगर लुंजिया, दोखोना, बोड़ो एंगी सिल्क, बोड़ो ज्वमगरा, बोड़ो गामोसा, बोड़ो थोरखा, बोड़ो खाम, बोड़ो सेर्जा, बोड़ो सिफंग, बोड़ो गोंगोना और बोड़ो जोथा शामिल हैं।

### पलवल : हिंदुओं को ...

ने एक सोची समझी साजिश के तहत 70 साल से मंदिर नहीं बनने दिया। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि हरियाणा में बाप-बेटे की सरकार नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हरियाणा की हालत खराब हो जाएगी। कांग्रेस प्रत्याशी मामन खान चुनाव जीतने के बाद मेवात से हिंदुओं को निकालने की धमकी दे रहे हैं। कांग्रेस सरकार धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व ने कहा कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर था, लेकिन राज्य में बाजपा की सरकार ने भाई-भतीजावाद को खत्म किया। भाजपा सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। इसलिए हम राज्य में ऐसी सरकार नहीं चाहते जो रिश्तेदारों को नौकरी दे, बल्कि ऐसी सरकार चाहते हैं जो सबका भला करे। आतंकवाद को अपना धर्म मानने वालों का साथ नहीं देना चाहिए। आतंकवादी देश की सेना पर हमला करते हैं तो इंडिया गठबंधन रोता नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की जनता आतंकवाद को अपना धर्म मानने वालों के साथ नहीं है। इस अवसर पर विधानसभा प्रभारी स्वाति सिंह, भाजपा उम्मीदवार गौरव गौतम, युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य, विधायक दीपक मंगला, जिला अध्यक्ष चरन सिंह तेवतिया, वरिष्ठ भाजपा नेता सखीर सिंह पेडेल, वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर हरेंद्र पाल सिंह राणा, पवन अग्रवाल, बिहारल दक्षिंत युवा नेता दिव्यांशु प्रसाद सहित अन्य नेता मौजूद रहे।

### हरियाणा : थमा चुनाव ...

डबल इंजन सरकार के काम और प्रदर्शन पर जोर दिया। इसके साथ ही उसने आरक्षण, भ्रष्टाचार, लुट्पटकरण और वंशवाद की राजनीति जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों से जुड़े मुद्दे दोनों मुख्य दलों के चुनावी घोषणापत्रों का अहम हिस्सा हैं। भाजपा के अधिनायक नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उन्होंने चार रैलियों को संबोधित किया। मोदी ने अपने भाषणों में कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि उन्होंने राम मंदिर मुद्दा सहित देश के लिए महत्वपूर्ण हर मुद्दे को उलझाए रखा। किसानों, गरीबों, दलितों और पिछड़े वर्गों सहित विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए केंद्र और हरियाणा की भाजपा नीत सरकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मद्दतादाओं से राज्य के त्वरित विकास के लिए भाजपा को फिर से सत्ता में लाने की अपील की। वहीं, भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर संविधान पर हमला करने का आरोप लगाया और बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, किसानों के कल्याण सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार की आलोचना की। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार देश के मुद्दी भर अमीरों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि संविधान गरीबों की रक्षा करता है और आरएसएस के लोग संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। गांधी ने भाजपा पर देश में धर्म, और जाति के आधार पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि उनको पार्टी नफरत को विजयी नहीं होने देगी। उन्होंने हरियाणा में बेरोजगारी और नशीली दवाओं के खतरे के मुद्दे भी उठाए।

### यह कानूनी से ...

ही केंद्र ने यह तर्क भी दिया कि अगर *वैवाहिक बलात्कार* को भी अपराध घोषित किया जाता है, तो ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तेजी से बढ़ते और लगातार बदलते सामाजिक एवं पारिवारिक ढांचे में संशोधित प्रावधानों के दुरुपयोग से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए यह साबित करना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण होगा कि संबंध के लिए सहमति थी या नहीं। शादी में जीवनसाथी से उचित यौन संबंध को अपेक्षा तो की जाती है, लेकिन ऐसी अपेक्षाएं पति को अपनी पत्नी को उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने का अधिकार नहीं देती हैं। केंद्र ने कहा कि बलात्कार विरोधी कानूनों के तहत किसी व्यक्ति को ऐसे कृत्य के लिए दंडित करना असंगत हो सकता है। संसद ने पहले ही विवाहित महिला की सहमति को सुरक्षित रखने के लिए उपाय प्रदान किए हैं। केंद्र ने कहा कि इन उपायों में विवाहित महिलाओं के साथ क्रूरता करने पर दंडात्मक कानून शामिल हैं। धरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कानून है, जो विवाहित महिलाओं की मदद कर सकता है।

### इजरायल का हिजबुल्लाह ...

जाने की सूचना है। सीरिया के जाबलेश शहर में स्थित रूसी एयरबेस के निकट बने शस्त्रागार पर इजरायल का ड्रोन हमला हुआ है। दक्षिणी लेबनान जमीनी लड़ाई में इजरायली हमले में एक सैनिक के मारे जाने के बाद लेबनानी सेना ने भी इजरायली सेना पर जवाबी फायरिंग की है। एक वर्ष से जारी लड़ाई में दोनों देशों की सेनाओं में टकराव का यह पहला मामला है।

### दुर्गा पूजा : प्रशासन...

और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में नवरात्रि का पर्याय दुर्गा पूजा, राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का जश्न मनाती है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दक्षिणी राज्यों में, त्योहार देवी दुर्गा या काली की जीत का सम्मान करता है, जबकि गुजरात में, नवरात्रि को पारंपरिक गम्बा नृत्य के बाद आरती के साथ मनाया जाता है। पूरे भारत में, नवरात्रि समारोह में नौ दिनों तक देवी के नौ रूपों की पूजा शामिल होती है, जिसमें मंच की सजावट, पाठ और शास्त्रों के जाप जैसे अनुष्ठान शामिल होते हैं। यह त्यौहार फसल के मौसम से जुड़ा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, जिसमें अंडल फसलों के लिए अनुष्ठान करते हैं, जबकि पुजारी बुद्ध रॉय शारदयी दुर्गा पूजा का संचालन करते हैं। यह त्यौहार लंबे समय से एकता और समावेशिता का प्रतीक रहा है। ऐतिहासिक रूप से, राजपरिवार सभ्य जातियों, पंथों और धर्मों के लोगों को निर्मात्रण देता था, तथा भूसा, चण्डी चावल ( चिरा-मुरी ) और दही जैसे प्रसाद वितरित करता था। सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने की यह प्रथा आज भी जारी है, जो समुदाय को एक साथ लाने में त्यौहार की भूमिका को मजबूत करती है। स्थानीय निवासी सुमन दास ने अपना उत्साह साझा करते हुए कहा कि इस उत्सव में भाग लेना एक यादगार अनुभव है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में नहीं है, बल्कि एक समुदाय के रूप में हमारे साझा इतिहास और बंधनों का जश्न मनाने के बारे में है। यह उत्सव ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों के संगम पर देवी के विसर्जन के साथ समाप्त होता है, जो देवी के अपने दिव्य निवास पर लौटने का प्रतीक है।

### 404 साल की ...

की एक साथ पूजा करना है। अनुष्ठानों का यह मिश्रण स्थानीय सांस्कृतिक तत्वों के साथ सदियों पुरानी परंपराओं के समिन्ध्रण का प्रतीक है। राजपुरोहित अरुणलोचन चक्रवर्ती कुलदेवी महामाया के लिए अनुष्ठान करते हैं, जबकि पुजारी बुद्ध रॉय शारदयी दुर्गा पूजा का संचालन करते हैं। यह त्यौहार लंबे समय से एकता और समावेशिता का प्रतीक रहा है। ऐतिहासिक रूप से, राजपरिवार सभ्य जातियों, पंथों और धर्मों के लोगों को निर्मात्रण देता था, तथा भूसा, चण्डी चावल ( चिरा-मुरी ) और दही जैसे प्रसाद वितरित करता था। सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने की यह प्रथा आज भी जारी है, जो समुदाय को एक साथ लाने में त्यौहार की भूमिका को मजबूत करती है। स्थानीय निवासी सुमन दास ने अपना उत्साह साझा करते हुए कहा कि इस उत्सव में भाग लेना एक यादगार अनुभव है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में नहीं है, बल्कि एक समुदाय के रूप में हमारे साझा इतिहास और बंधनों का जश्न मनाने के बारे में है। यह उत्सव ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों के संगम पर देवी के विसर्जन के साथ समाप्त होता है, जो देवी के अपने दिव्य निवास पर लौटने का प्रतीक है।

### कालकाजी में नवरात्रि ...

रात में लगभग 12:40 हुआ। सूचना मिली कि कुछ श्रद्धालु रामप्पाऊ और लोटस मंदिर के संगम स्थल पर दुर्गा पूजा मंडल में बिजली के तार में करंट लगने से घायल हो गए। पुलिसकर्मी द्रुत मौके पर पहुंचे और कुछ घायलों को पीसीआर वैन और ईआरवी की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। आनन-फानन में बिजली आपूर्ति काट दी गई और लोगों को मौके से हटा दिया गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस हादसे में कुल सात लोग घायल गए। वहीं एक छात्र की मौत हो गई। करंट फैलने को सूचना मिलते ही मौके पर भगइड मंच गई, लेकिन किसी तरह स्थिति को मौके पर संभाला गया। चार घायलों को एम्स ट्रेंमा अस्पताल और तीन को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिस छात्र की इस हादसे में मौत हुई, वह सफदरजंग अस्पताल में भर्ती था।

### आरनई सहित बोड़ो ...

चावल आधारित मादक पेय है। बोड़ो समुदाय में चावल से बनी बीयर पीने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। बोड़ो लोगों का मानना है कि यह पेय भगवान शिव से आया है और इसे दवा के रूप में लिया जाता है। इसके अतिरिक्त, पारंपरिक खाद्य उत्पाद एसोसिएशन ने चार प्रतिष्ठित व्यंजनों के लिए जीआई टैग प्राप्त किया। व्यंजनों में नफम, ओडला, ग्वखा और नाजी शामिल हैं। पहला है *बोड़ो नफ़म*, जो किण्वित मछली का एक महत्वपूर्ण और पसंदीदा व्यंजन है जिसे लगभग तीन महीने की प्रक्रिया में तैयार किया जाता है। दूसरा खाद्य पदार्थ है *बोड़ो ओडला*, जो चावल के पाउडर से बनी करी है जिसमें लहसुन, अदरक, नमक और क्षार का स्वाद होता है। दूसरा है *बोड़ो ग्वखा*, जिसे स्थानीय तौर पर *ग्वका ग्वखों* के नाम से भी जाना जाता है, और इसे खास तौर पर बिहू त्योहार के साथ-साथ ब्विसागु त्योहार के दौरान तैयार किया जाता है। प्रतिष्ठित जीआई टैग पाने वाला चौथा विशेष खाद्य पदार्थ *बोड़ो नाजी* है, जो जूट के पत्तों से तैयार एक अर्ध-किण्वित भोजन है। पारंपरिक बोड़ो बुनकर संच ने *बोड़ो आरनाई* के लिए जीआई टैग भी हासिल किया है, जो प्रकृति से प्रेरित डिजाइनों वाला एक खूबसूरती से तैयार किया गया कपड़ा है। आरनाई बोड़ो पारंपरिक संस्कृति का प्रतीक है और इसका उपयोग उपहार के रूप में मेहमानों को सम्मानित करने और सम्मानित करने के लिए किया जाता है। ये जीआई टैग बोड़ो समुदाय की अनूठी सांस्कृतिक परंपराओं को मान्यता देते हैं और अनधिकृत उपयोग के खिलाफ कानूनी संरक्षण प्रदान करते हैं, जिससे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण सुनिश्चित होता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने अपने एक्स हेंडल पर कहा कि यह बताते हुए खुशी हो रही है कि असम में बीटीआर की 8 पारंपरिक वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है, जो इसकी अनूठी प्रकृति और समृद्ध इतिहास को दर्शाता है। इनमें आरनई, बोड़ो नफाम

तापमान	
अधिकतम	न्यूनतम
27°	24°



राज्यपाल ने मद्र ओल्ड एज होम में रहने वालों के साथ मनाया अपना जन्मदिन



**गुवाहाटी (हिंस)**। सामुदायिक सहभागिता का एक हृदयस्पर्शी प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में मद्र ओल्ड एज होम का दौरा किया और यहां अपना 70वां जन्मदिन मनाया। राज्यपाल आचार्य ने आज के इस दिन को मद्र ओल्ड एज होम के निवासियों के साथ बिताने का निर्णय लिया। अपने दौरे के दौरान राज्यपाल आचार्य ने वृद्धाश्रम में रहने वालों से सार्थक बातचीत की और उनका आशीर्वाद, ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने वृद्धाश्रम की बहनों और माताओं के साथ अपना जन्मदिन मनाते में सक्षम होने पर अपनी गहरी खुशी व्यक्त की। राज्यपाल ने कहा कि उनके मुस्कुराहट प्रेरणा का स्रोत है। इसके अलावा, हमारे समुदाय के इन महत्वपूर्ण सदस्यों के साथ समय बिताने से उनकी सेवा और सम्मान के प्रति मेरी प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। आचार्य ने यह भी कहा कि एक समाज तभी विकसित होता है जब उसके प्रत्येक सदस्य को जीने और सम्मान का अधिकार प्राप्त हो।

## श्रीमंत शंकर मिशन दृष्टिहीन विद्यालय का स्थापना दिवस संपन्न

**नागांव (निंस)**। उत्तर-पूर्व भारत की मानव सेवा के लिए प्रसिद्ध संस्था श्रीमंत शंकर मिशन का एक दिवसीय स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रम के साथ बड़मपुर स्थित श्रीमंत शंकर मिशन अंध विद्यालय में मनाया गया। इस अवसर पर दृष्टिहीन शिक्षा के संस्थापक द ग्रेट लुई ब्रेल की प्रतिमा का आनावरण सादित - प्रतिदिन समाचार गोष्ठी के स्वताधिकारी तथा असमिया समाचार पत्र प्रतिदिन के संपादक जयंत बरुवा के कर कमलो से किया गया। उक्त प्रतिमा नागांव जिला माहेश्वरी सभा की तरफ से प्रदान की गई। स्थापना दिवस के अवसर पर सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। जिसका शुभारंभ समाजसेविका रीना दास वैष्णव ने किया। उत्सव विद्यालय के छात्र-छात्राओं के लिए निःशुल्क नेत्र व स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन श्रीमंत शंकर मिशन के उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण कुमार बोरा ने किया। बाद में श्रीमंत शंकर मिशन उच्च विद्यालय की प्रधान शिक्षिका गुण बोरा ने झंडोतोलन किया। श्रीमंत शंकर मिशन तथा विद्यालय के संस्थापक व विद्यालय के साथ जुड़े दिवंगत व्यक्तियों की स्मृति में सभी को श्रद्धांजलि अर्पित विद्यालय संचालन समिति के अध्यक्ष गिरिश चंद्र कलित्ता, पूर्व अध्यक्ष डॉ. लंबोहर हजारीका, सेवानिवृत्त शिक्षक रमेश चंद्र हजारीका, श्रीमंत शंकर मिशन के उपाध्यक्ष हर बोरा, माधन सैकिया और सह सचिव प्रदीप सैकिया ने दी। विद्यालय परिसर में बड़मपुर शहीद स्मृति आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अध्यक्ष देवहुति



महंत, श्रीमंत शंकर मिशन के सह सचिव मुनिन्दर सैकिया, समाजसेवी दयाराम कलित्ता ने वृक्षारोपण किया। विद्यालय परिसर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा का शुभारंभ विद्यालय के जेष्ठ शिक्षक टिकेन खाटोनियार ने किया। उक्त कार्यक्रम के बाद महामानव लुई ब्रेल की प्रतिमा का विधिवत आनावरण सादित-प्रतिदिन समाचार समूह के संपादक जयंत बरुवा के कर कमलो से हुआ। लुई ब्रेल की प्रतिमा का नागांव जिला माहेश्वरी सभा की ओर से निर्माण करवाया गया। इस अवसर पर नागांव जिला माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष संपत कुमार धृत, पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद मुंदक, पूर्व सचिव द्रव्य बिनोद कुमार माहेश्वरी, भगवती प्रसाद झंवर व जगदीश प्रसाद धृत उपस्थित थे। सभी का श्रीमंत शंकर मिशन द्वारा अभिनंदन किया गया। दोपहर बाद श्रीमंत शंकर मिशन के अध्यक्ष परमेश्वर दास की अध्यक्षता में एक आम सभा संपन्न हुई। सभा का संचालन श्रीमंत शंकर मिशन के साधारण सचिव बलदेव शर्मा ने किया।

## मोड़राबाड़ी में महिला के साथ बलात्कार

**मोड़राबाड़ी (हिंस)**। मोड़राबाड़ी जिले के मोड़राबाड़ी में एक महिला के साथ हुए बलात्कार को लेकर उत्तेजना फैल गई है। जानकारी के अनुसार मोड़राबाड़ी के लोचनबाड़ी का शरीफुल इस्लाम नामक आरोपी लंबे समय से उसी गांव की एक बहू को भेदे इशारे करता आ रहा था। महिला के पति के काम से बाहर रहने का फायदा उठाकर शरीफुल इस्लाम दोपहर के समय जबकि महिला के घर में घुसकर उसका यौन उत्पीड़न किया और उसके कपड़े फाड़ दिए। महिला के चिल्लाने पर पड़ोस के लोग आए और महिला को शरीफुल से बचाया। इस बीच, शरीफुल के परिवार के सदस्यों ने महिला को पुलिस में नहीं जाने के लिए कई तरह के प्रलोभन दिए, लेकिन जब महिला ने इनकार कर दिया, तो उसकी पिटाई की गई और उसे जान से मारने की धमकी दी गई।

## प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामरूप में आवासीय युवाओं को सशक्त बनाना बीटीसी विद्यालय की रखी वर्चुअल आधारशिला की प्रतिबद्धता है : डॉ. स्वर्गीयारी

**रिंगिया (विभास)**। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को झारखंड के हजारीबाग से कामरूप जिले के बोको के नागोपारा में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के राष्ट्रीय जनजातीय छात्रों के लिए शिक्षा सोसायटी के तहत बने वाले एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की आधारशिला रखी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देशभर में ऐसे कुल 40 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया और 25 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी। इस मौके पर बोको में आयोजित कार्यक्रम में राज्य सरकार के शिक्षा जनजाति परिक्रमा विभाग के मंत्री डॉ. रंजो पेगु, राज्य सरकार के पर्यावरण और वन तथा कामरूप ग्रामीण जिले के अधिभावक मंत्री चंद्र मोहन पटवारी, गुवाहाटी लोकसभा क्षेत्र की सांसद बिजुली कलित्ता ने भी, बोको की विधायिका नंदिता दास, राधा हासोंग स्वायत्त परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य टंकेश्वर राधा, जनजातीय कार्य (ऊपरी) विभाग



के प्रधान सचिव मुकेश साहू और कामरूप जिले के जिला आयुक्त देव कुमार मिश्रा उपस्थित थे। कार्यक्रम में मंत्री डॉ. रंजो पेगु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्चुअल माध्यम से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की आधारशिला स्थापन करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता की अर्थ सामाजिक अवस्था के विकास की

दिशा में शिक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए सभी नागरिकों को राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज जिस एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की आधारशिला रखी गई है, उसमें कुल 480 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, खेल प्रशिक्षण और आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दूसरी ओर कामरूप जिले के अधिभावक मंत्री चंद्रमोहन पटवारी ने कहा कि यह जिले के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कामरूप जिले के बोको की आदिवासी बस्ती में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की आधारशिला रखी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छात्रों को शैक्षणिक के साथ-साथ कौशल विकास की सुविधाएं भी प्रदान करेगा। कार्यक्रम की शुरुआत गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र के सामने दीपक प्रज्वलन और पुष्पांजलि समारोह के साथ हुई।



**विकसित भात समाचार**। बोटीसी सीईएम प्रमोद बोरो के युवाओं को एक उच्चतर कौशल भविष्य के लिए सशक्त बनाने के दृष्टिकोण के अनुसार, बोटीसी ईएम

के निर्माण के लिए सही मार्गदर्शन और संसाधनों के साथ हमारे युवाओं को सशक्त बनाना आवश्यक है। यह कार्यक्रम हमारे छात्रों की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए बोटीसी की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा कि आज का करियर काउंसलिंग कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे छात्र विविध अवसरों का पता लगाएँ और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए सुसज्जित हैं। बोटीसी के पुस्तकालय सेवा विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य विशेषज्ञ कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करना था, जिससे छात्र अपनी योग्यता और शैक्षणिक शक्तियों के आधार पर विभिन्न कैरियर अवसरों के बारे में सूचित निर्णय ले सकें।

## नेस्ट एशीया लेकर आ रहा है थाई जायकों की महक अयुप ने ध्वजारोहण के साथ चार दिवसीय अग्रसेन जयंती का शुभारंभ किया



**गुवाहाटी**। रेडिसन ब्लू गुवाहाटी का प्रीमियम पैन-एशियाई रेस्तरां, नेस्ट एशिया, दुर्गा पूजा के दिनों में यानि 4 से 13 अक्टूबर तक आयोजित करने जा रहा है। अपना विशेष थाई फूड फेस्टिवल, जिसका नाम है, *सेवर थाई फ्लेवरस*। यह फूड फेस्टिवल ना केवल आपके टेस्ट बडस को उत्तेजित करेगा, बल्कि आपको थाईलैंड के विशिष्ट और सुगंधित स्वादों में कुछ इस तरह से डुबो देगा, कि आप प्रामाणिक और पारंपरिक थाई भोजन का अनुभव कर पाएंगे। इस फेस्टिवल की शुरुआत 3 अक्टूबर को मीडिया से बातचीत के साथ हुई, जिसमें स्थानीय प्रेस और खाने के शौकीनों को शोफ राजा दास से मिलने का मौका मिला। राजा

दास रेडिसन ब्लू प्लाजा एयरपोर्ट दिल्ली के विशेषज्ञ शोफ हैं। शोफ राजा दास ने ही इस फेस्टिवल को व्यवस्थित किया था। बता दें कि इस पूरे फेस्टिवल के दौरान, खास बात यह रहेगी कि थाई व्यंजनों के सार पर प्रकाश डालने हेतु शोफ दास दैनिक सत्रों में मेजबानी करेंगे, जिसमें खाने वालों को खास तौर पर तैयार किए गए सेट मेन्यू के बारे में विस्तृत तरीके से बताया जाएगा। रेडिसन ब्लू गुवाहाटी के जनरल मैनेजर अंकुर मेहरोत्रा ने इस उत्सव के बारे में उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि हम इस विशेष कार्यक्रम के लिए अपनी कलिनरी (पाक) टीम में शोफ राजा दास का स्वागत करते हुए बेहद उत्साहित हैं। हमारा लक्ष्य अपने मेहमानों को एक यादगार अनुभव प्रदान करना है जो न केवल थाई व्यंजनों के समृद्ध स्वादों को प्रदर्शित करेगा, बल्कि एक आकर्षक और मनोरंजक माहौल भी बनाएगा।

**गुवाहाटी (विभास)**। अग्रवाल युवा परिषद (अयुप) गुवाहाटी ने गौहाटी गौशाला में चार दिवसीय अग्रसेन जयंती का शुभारंभ ध्वजारोहण से किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी व उद्योगपति शरद जैन, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ. श्यामसुंदर हरलालका ने महालक्ष्मी व अग्रसेन के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित व ध्वजारोहण करके कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर उनके साथ अयुप के अध्यक्ष प्रवेश अग्रवाल, सचिव स्नेहा जालान, कोषाध्यक्ष प्रतीक जालान भी उपस्थित थे। अध्यक्ष प्रवेश अग्रवाल ने स्वागत संबोधन में अग्रसेन महाराज की विशेषताओं को बताते हुए कहा कि महाराज अग्रसेन ने 18 गोत्र बनाकर पूरे अग्रोहा को 18 गोत्रों में समाहित कर लिया था। अग्रोहा के हर व्यक्ति ने अग्रसेन को अपनाया और अग्रसेन ने उनको अपनाया। जिसका परिणाम आज अग्रसेन के इतने बड़े परिवार का होना है। अग्रसेन ने उस समय समाजवाद को खत्म कर एक पालक के रूप में एक समाज एक परिवार का संदेश दिया था। इस वर्ष उनकी जयंती एकनाम के नाम से मनाई जा रही है। जिसका अर्थ है एकता



और यह शब्द संस्कृत से लिया हुआ है। इस नाम में पहला अक्षर हिंदी का ए है। अगले दो अक्षर अंग्रेजी के हैं और अंतिम शब्द म असमिया भाषा से लिया हुआ है। इसका उद्देश्य यही है कि एकता से ही हमारा देश विकसित हो सकता है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शरद जैन ने कहा कि जिसने अग्र

समाज की स्थापना की, जिसने हर एक व्यक्ति को यह संदेश दिया कि हम सब एक हैं। आज उस महाराज अग्रसेन को हम नमन करते हैं। उन्होंने संदेश दिया कि हमारे बीच कोई भेदभाव नहीं है। हम सभी एक ही परिवार के सदस्यों की तरह रह रहे हैं। विशिष्ट अतिथि डॉ. श्याम सुंदर हरलालका ने कहा कि महाराज अग्रसेन को अगर याद करने तक ही हम रह जाएंगे तो हम बहुत कुछ खो देंगे। उनके आदर्शों का पथ हमें खरा उतरना होगा। हम बहुत कुछ अब तक खो चुके हैं। अब हमें अग्रवाल समाज के बारे में गहन चिंतन की आवश्यकता है। अयुप की सचिव स्नेहा जालान ने चार दिवसीय कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि अग्रसेन जयंती के दूसरे दिन 51 जोड़ी द्वारा महालक्ष्मी यज्ञ गौशाला के वृंदावन गार्डन में किया जाएगा। जिसमें सवामणी व 56 भोग लगाकर महाप्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। इससे पहले प्रातः श्याम मंदिर से पद्म कलश यात्रा निकाली जाएगी जो गौशाला के वृंदावन गार्डन में समाप्त की जाएगी। इस अवसर पर महाराज अग्रसेन के चित्र के आगे 108 दीप प्रज्वलित किया गया तथा गो पूजन करके गो सवामणि प्रदान की गई। उद्घाटन के अवसर पर सामूहिक रूप से अग्रसेन चालीसा का पठन करके आरती भी उतर गई। इस समारोह में अग्रवाल सभा के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल और मारवाड़ी सम्मेलन कामरूप शाखा के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता व अजय अग्रवाल भी अभिर्नंदन किया गया।



कांग्रेस ने हरियाणा में चलाया खर्ची-पर्ची का सिस्टम : पुष्कर सिंह धामी

फरीदाबाद (हिंस)। बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी पंडित मूलचंद शर्मा के पक्ष में गुरुवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरियाणा के लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर जाने के बाद कह रहा हूँ कि जगह-जगह लोगों के अंदर उत्साह है, उन्हें देखा है कि 10 साल में शिक्षा, स्वास्थ्य व कानून व्यवस्था के क्षेत्र व सड़कों की कनेक्टिविटी जैसे हर क्षेत्र में काम हुआ है। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 के बीच में कांग्रेस की सरकार रही, जिसमें लोगों ने भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, जातिवादी सरकार और पर्ची खर्ची सिस्टम को भी देखा है। इन 10 सालों में जो हरियाणा में काम हुआ है, विकास की बुलंदियों को छुआ है। भाजपा प्रत्याशी मूलचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है।

# भूपेंद्र हुड्डा नहीं दे पा रहे सवालियों का जवाब : सीएम

जौड़ (हिंस)। उचाना की कपास मंडी में गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी देवेन्द्र अत्री के समर्थन में जन आशीर्वाद जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि आठ तारीख को जब चुनाव का परिणाम आएगा। तब कांग्रेस पार्टी पीजीआई में भती हो जाएगी। भाजपा की जन हितेपी नीतियों से हर वर्ग खुश है। इन नीतियों को देखते हुए मतदाताओं ने मन बना लिया है कि भाजपा की प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनेगी। उचाना के मतदाताओं के जोश से साफ हो गया है उचाना में कमल खिलने जा रहा है। सैनी ने कहा कि आज प्रचार का अंतिम दिन है और शाम पांच बजे प्रचार थम जाएगा। इस दौरान उन्हें पूरे प्रदेश में घूमने का मौका मिला। वो जहां भी गए तो वहां जनता का अपार प्यार व स्नेह देखने को मिला। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कुछ सवाल किए थे। जिनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने हुड्डा से केवल चार सवाल पूछे। ऐसे में स्पष्ट है कि हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल



पर उनका 56 दिन का कार्यकाल भारी पड़ रहा है। अगर वह भाजपा के 10 साल के कार्यकाल में लग गए तो गिनवाने में नहीं आएंगे। उन्होंने 56 दिन काम किया और हुड्डा ने 10 साल राज किया है। ऐसे में जनता स्वयं तय कर रही है कि किसका कार्यकाल अच्छा रहा है। अब हरियाणा की जनता हुड्डा से हिसाब मांग रही है। देवेन्द्र अत्री ने कहा कि उचाना का मतदाता परिवारवाद को वोट की चोट देने का काम करेगा। उचाना हलके से 50 साल राजनीति करने वालों ने उचाना के लिए कुछ

नहीं किया। विकसित उचाना के सपने को साकार करना चाहे तो जिस परिवार ने हमारा 50 साल तक शोषण किया है उसको वोट की चोट के साथ सबक सिखाने का काम करें। भाजपा के पक्ष में मतदान कर भाजपा की बड़ी जीत सुनिश्चित करें। उचाना मेरा परिवार है अपने परिवार से वायदा करता हूँ कि उचाना के मतदाता आधी रात को याद करेंगे तो नंगे पांव उनके लिए दौड़ा चला आउंगा। इस मौके पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली सहित अन्य प्रमुख नेता मौजूद रहे।

# हरियाणा में चुनाव का शोरगुल थमा, सभी दलों ने झोंकी ताकत

चंडीगढ़ (हिंस)। हरियाणा में 15वीं विधानसभा चुनाव के लिए चल रहा प्रचार गुरुवार को शाम समाप्त हो गया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत दिखाई। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह, भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री नायब सैनी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने हरियाणा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। प्रचार समाप्त होने तक प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस व भाजपा के बीच सीधा मुकाबला बना हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में जमकर प्रचार किया। प्रचार के दौरे भाजपा ने हरियाणा में करीब 150 चुनावी रैलियों की। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह की 14 रैलियां शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ऑडियो ब्रिज के माध्यम से भी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी प्रदेश में छह-छह रैलियों को संबोधित किया। भाजपा ने 40 से अधिक केंद्रीय मंत्रियों को प्रचार के लिए हरियाणा में उतारा। भाजपा ने तीसरी बार सरकार बनाई तो हरियाणा

में राजनीतिक रिवाज बदल सकता है। दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस ने पूरे प्रचार अभियान के दौरान प्रदेश में 70 चुनावी रैलियों का आयोजन किया, जिसमें राहुल गांधी व प्रियंका गांधी की छह रैलियां व दो रोड शो शामिल हैं। इसके अलावा अंतिम चरण में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हरियाणा में दो रैलियों को संबोधित किया। कांग्रेस ने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्ख के अलावा कई राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्रियों को हरियाणा में प्रचार के लिए उतारा। चुनाव प्रचार के शुरू से लेकर समाप्त तक कांग्रेस गुटबाजी में जुड़ती रही। कांग्रेस अगर इस बार सत्ता में आती है तो दस साल का बनवास खत्म हो जाएगा। हरियाणा में लंबे समय से हाशिए पर चल रही इनेलो ने इस बार बड़ी गंभीरता से चुनाव लड़ा है। पिछले चुनावों के मुकाबले सहयोगी बसपा की सुप्रीमो मायावती ने इस बार प्रदेश में अधिक समय दिया है। कुमारी मायावती ने भी हरियाणा में चार चुनावी रैलियां की। इनेलो को पिछले चुनाव में केवल एक सीट पर जीत मिली थी। इस बार अगर इनेलो की सीटें बढ़ती हैं तो पार्टी फिर से प्रदेश की राजनीति में खड़ी हो जाएगी। जननायक जनता पार्टी ने इस बार आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। पिछले चुनाव में जेजेपी को दस सीटों पर जीत मिली थी। इस जीत को दोहराना जेजेपी के लिए मुश्किल है।

# भाजपा में राष्ट्रवाद तो कांग्रेस में है परिवारवाद : प्रदीप सांगवान



सोनीपत (हिंस)। भाजपा के बरोदा से उम्मीदवार प्रदीप सांगवान ने गुरुवार को कहा कि भाजपा एक राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी है, जिसके लिए राष्ट्रवाद सबसे पहले है। जबकि कांग्रेस के लिए परिवारवाद जरूरी है। आजादी के इतने दशकों बाद भी कांग्रेस

परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ पाई है। गुरुवार को बरोदा विधान क्षेत्र के गांव जसराना, ब्रह्मभवन गोहाना में प्रदीप सांगवान ने कहा कि कांग्रेस में आम कार्यकर्ता को बढ़ावा नहीं मिलता। जबकि भाजपा एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाती है, जिसके कई उदाहरण हमारे समक्ष

हैं। हमें राष्ट्रहित में भाजपा को मजबूती देनी चाहिए, ताकि भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीव्रता से आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार सांगवान ने जनता का आह्वान किया कि वह किसी भी प्रकार के झूठे बहकावे में न आये। सत्ता हाइसिल करने के लिए विपक्षी दल हर प्रकार के झूठे वायदे कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता से उनका कोई लेना-देना नहीं है। आम जनमानस के हितों के संरक्षण के लिए केवल भाजपा ही समर्पित है, जिसका ध्येय ही जनसेवा है। इसलिए भाजपा के विकास और जनहितकारी नीतियों पर जनता को मुहुर लगाने का काम करना चाहिए। पुनः सरकार बनने के बाद विकास के मामले में हरियाणा को अलग पहचान दिलाएंगे।

# पंजाब में किसानों ने फिर रोकी ट्रेनें, पूरे प्रदेश में परिचालन प्रभावित, यात्री हुए परेशान

चंडीगढ़ (हिंस)। फसलों पर एमएसपी को लीगल गारंटी और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी मामले को लेकर गुरुवार को किसानों ने पंजाब और हरियाणा में कम से कम 36 जगह रेलगाड़ियों को रोककर प्रदर्शन किया। इसके कारण पूरे पंजाब में ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा और बड़ी संख्या में यात्री परेशान हुए। किसानों के प्रदर्शन के कारण रेलवे ने कई रेलगाड़ियों के रूट डायवर्ट किए और कई रेलगाड़ियों को रद्द करना पड़ा। इससे पहले किसानों ने अमृतसर में 15 फरवरी को पहली बार रेल ट्रेक अवरूद्ध किया था। फिर 16 अप्रैल को शंभू ट्रेक पर प्रदर्शन शुरू किया था, जो कि करीब 34 दिन तक चला था। पंजाब व हरियाणा में किसानों ने दोपहर को दो घंटे तक रेलवे ट्रेक पर बैठकर केंद्र सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन संयुक्त



किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) और किसान मजदूर संगठन के बैनर तले चला। धरने के दौरान चंडीगढ़, अंबाला, अमृतसर, लुधियाना और जम्मू रूट पूरी तरह प्रभावित हुए। अमृतसर में रेल रोकें आंदोलन में

पहुंचे किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने भाजपा सांसद कंगना रावत और केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर लखीमपुर कांड में बिट्टू के साथियों की मौत हो गई होती तो उनका

क्या हाल होना था। उन्होंने कंगना को मूर्ख बताते हुए कहा कि केंद्र और भाजपा नेताओं के इशारे पर कंगना और बिट्टू किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सरवन सिंह ने कहा कि अगर

केंद्र व राज्य सरकार ने समय रहते आड़तियों व श्रमिक संगठनों की मांगें मानकर हड़ताल खत्म नहीं करवाई तो किसान भी इस आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन वीकेयू नेता हरजिंदर सिंह ने भरना प्रदर्शन के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि लखीमपुर खीरी में किसानों को तीन साल से इंसफ नहीं मिला है। भाजपा नेता के बेटे ने कई किसानों को कुचल दिया था, जिसके चलते हमें आज रेल रोकनी पड़ी है। प्रदर्शन के दौरान शंभू बाईर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने भी रेलवे ट्रेक पर यातायात रोका। इसके अलावा अंबाला, पटियाला, लुधियाना, जालंधर, बटिंडा और फिरोजपुर में किसान ट्रेक पर बैठे थे। किसानों का कहना था कि वह लोगों की मुश्किल को समझते हैं लेकिन मजबूरी में उन्होंने यह राह चुनी है।

# बाढ़ के पानी में घिरा बंजरिया प्रखंड मुख्यालय



पूर्वी चंपारण (हिंस)। सिकरहना (चूड़ी गंडक) के साथ ही उसकी कई सहायक नेपाली नदियों से घिरे बंजरिया प्रखंड क्षेत्र में गुरुवार को भी बाढ़ के पानी के बढ़ने का सिलसिला जारी रहा। लिहाजा प्रखंड के फुलवार उत्तरी, फुलवार दक्षिणी, पचरूखा पूर्वी, पचरूखा मध्य, पचरूखा पश्चिम जनेरवा, रोहिनिया पंचायत के कई गांव बाढ़ में घिर गए। जिससे इन गांवों का जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क बाधित है। इन लोगों को नाव ही एक मात्र सहारा है। इसके साथ ही बाढ़ का पानी धीरे धीरे अजगरी पंचायत स्थित प्रखंड मुख्यालय व एफसीआई के गोदाम के समीप भी पहुंच चुका है। बताया जा रहा है, जैसे जैसे नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में पानी घट रहा है, वैसे वैसे बंजरिया प्रखंड में पानी फैल रहा है। जिससे किसानों का भारी नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कई पंचायत में पहले बारिश में गिरे धान व गन्ना की फसल को अब बाढ़ का पानी डुबो चुका है। जिससे किसानों के नगदी फसल बर्बाद हुए है। जिला मुख्या संघ के पूर्व अध्यक्ष कुमार मनोज सिंह ने बताया कि जिस तेजी से पानी बढ़ रहा है।

# नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया तोड़फोड़

नवादा (हिंस)। नवादा जिले के पकरीबरावां में संचालित निजी नर्सिंग होम पटना क्लीनिक में गुरुवार को प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत हो गई। मृतका 26 वर्षीय शोभा देवी पकरीबरावां थाना क्षेत्र के एरुी गांव मनीष कुमार मांडी की पत्नी थी। घटना के बाद बड़के लोगों ने उक्त क्लीनिक में तोड़फोड़ किया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल की। बताया जाता है कि प्रसव पीड़ा के बाद परिजन महिला को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पकरीबरावां पहुंचे थे। उस समय ड्यूटी पर तैनात एएनएम एवं आशा ने बताया कि यहां बच्चा हो जाएगा। द्वाइं घंटे के बाद उसे बताया गया कि उसकी पत्नी को नवादा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इसके बाद उसे पटना क्लीनिक में भर्ती कराया गया। परिजन के अनुसार उक्त नर्सिंग होम में ऑपरेशन से बच्चा निकालने के लिए 50 हजार रुपए एवं ब्लड की डिमांड की गई। ऑपरेशन के दौरान ही जच्चा- बच्चा की मौत हो गई। इसके बाद नर्सिंग होम के कर्मी उसे नवादा इलाज के लिए ले जाने के बहाने शव को नर्सिंग होम से हटा दिया। परिवार वालों द्वारा महिला के बारे में



पूछे जाने पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर गुस्सा लोगों ने नर्सिंग होम में तोड़फोड़ शुरू कर दिया। सूचना मिलने के बाद थानाध्यक्ष अजय कुमार एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। मामले की जांच-पड़ताल की गई। बाद में शव को डुमगावां पेट्रोल पंप के पास से बरामद किया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल नवादा लाया गया है। मामले की

गंभीरता को देखते हुए एसडीओ सदर अखिलेश कुमार, सीओ राजेश कुमार, सीएचसी के दो डॉक्टर नर्सिंग होम पहुंचे। सभी ने नर्सिंग होम की जांच पड़ताल किया। नर्सिंग होम को सील करने के पहले रजिस्ट्रेशन सहित अन्य कागजातों की जांच की जा रही है। इस मामले में सीएचसी पकरीबरावां के कर्मियों की भूमिका संदिग्ध है। रेफर के बाद उसे कायदे से सदर अस्पताल नवादा भेजा जाना

# जन जन के साथ भारतीय सेना और सुरक्षा बल की आस्था व आराध्य है तनोट माता

जैसलमेर (हिंस)। देश की पश्चिमी सीमा पर स्थित राजस्थान के सीमांत जिले जैसलमेर के प्रसिद्ध शक्ति पीठ तनोट माता मंदिर में शारदीय नवरात्रा के दौरान देवी उपासक श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचने शुरू हो गए हैं। तनोट माता मंदिर न सिर्फ हिंदू धर्मावलंबियों बल्कि हर भारतीय के दिल में खास स्थान रखता है। भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ी कई यादें इससे जुड़ी हुई हैं। भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित इस मंदिर के दर्शन करने हजारों श्रद्धालु हर साल यहां पहुंचते हैं। भारतीय सेना का भी इससे गहरा संबंध है। यह मंदिर देश की पश्चिमी सीमा के निगेहवान सरहदी जैसलमेर जिले की पाकिस्तान से सटी सीमा पर बना हुआ है। तनोट माता का मंदिर अपने आप में अद्भुत मंदिर है। सरहद पर बना यह मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र के साथ साथ भारत-पाकिस्तान के 1965 व 1971 के युद्ध का प्रत्यक्ष गवाह भी रहा है। युद्धकाल में घंटित घटनाओं को आज भी लोग माता का चमत्कार मानते हैं। यही वजह है कि भारतीय सेना की रक्षक के रूप में पूरा देश तनोट माता को पूजता है। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना के जवानों की तनोट माता ने मां बनकर ही रक्षा की थी। जैसलमेर स्थित थार के रेगिस्तान में शहर से 120 किलोमीटर दूर सीमा के पास तनोट माता का चमत्कारी मंदिर स्थित है। जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर बने तनोट माता के मंदिर से भारत-पाकिस्तान युद्ध की कई यादें जुड़ी हुई हैं। राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना को परास्त करने में तनोट माता की भूमिका बड़ी अहम मानी

जाती है। यहां तक मान्यता है कि माता ने सैनिकों की मदद की जिससे पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा। इस घटना की याद में तनोट माता मंदिर के संग्रहालय में आज भी पाकिस्तान की ओर से दागे गए जिंदा बम रखे हुए हैं। दुश्मन ने हजारों बम दमो जिसमें से 450 के करीब बम मंदिर परिसर में गिरे लेकिन फटते तक नहीं। शत्रु ने तीन अलग-अलग दिशाओं से तनोट पर भारी आक्रमण किया था। दुश्मन के तोपखाने जबदस्त आग उगलते रहे, लेकिन तनोट की रक्षा के लिए मेजर जय सिंह की कमांड में ग्रेनेडियर की एक कंपनी और सीमा सुरक्षा बल की दो कंपनियां दुश्मन की पूरी ब्रिगेड का सामना कर रही थी। 1965 की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना की तरफ से गिराए गए बम भी इस मंदिर का बाल बांका तक नहीं कर सके। माता के बारे में कहा जाता है कि युद्ध के समय माता के प्रभाव ने पाकिस्तानी सेना को इस कदर उलझा दिया था कि रात के अंधेरे में पाक सेना अपने ही सैनिकों को भारतीय सैनिक समझ कर उन पर गोलाबारी करने लगे और परिणाम स्वरूप स्वयं पाक सेना की ओर से अपनी सेना का सफाया हो गया। तनोट माता मंदिर देश के सबसे प्रसुध देवी शक्ति पीठ मंदिरों में से एक है। यह मंदिर लगभग 1200 साल पुराना है, इस मंदिर में हमेशा से ही भक्तों की गहरी आस्था रही है। 1971 में पुनः भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ, इस युद्ध में पाकिस्तान ने फिर से जैसलमेर के ओर से हमला किया, इस बार पाकिस्तान ने श्री तनोट माता मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित लोंगोवाला गांव पर हमला किया।

# गोचर भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाएंगी योगी सरकार

लखनऊ (हिंस)। योगी सरकार प्रदेश भर में गोचर भूमि को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी ने इसके लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अभियान की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने के भी आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान लापरवाही बर्दाशत नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोचरों को हरा चला, भूसा और पीप्टिफ पशुआहार उपलब्ध कराने के लिए फैसला लिया है। इसी क्रम में प्रदेश के 12 जिलों में 27 हजार से अधिक गोचर भूमि को शत प्रतिशत कब्जामुक्त किया जा चुका है। अभियान की प्रतिदिन रिपोर्ट शासन को सौंपते नोडल अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को गोचर भूमि को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी की मंशा के अनुरूप अभियान को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए नोडल अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है।

# अग्रसेन जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा

अजमेर (हिंस)। महाराजा श्री अग्रसेन जी की शोभायात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से निकली गई। शोभायात्रा के स्वागत में समाज के बंधुओं द्वारा जगह-जगह तोरण द्वार बनाए गए, अग्रसेन जी की आरती की तथा मंच से फूल बरसाए गए। अग्रसेन जयंती महोत्सव के मुख्य संयोजक अशोक पंसारी एवम सुनील गोयल ने बताया की ब्लू केसल स्थित श्री राम बलदेव ब्रह्मप्रसाद गोयल ट्रस्ट धर्मशाला के बाहर महाराजा अग्रसेन जी की समाज के प्रमुख बंधुओं द्वारा पूजा अर्चना के साथ जुलूस प्रारंभ हुआ। जुलूस में आगे डी जे के साथ अग्रबंधु अग्रसेन जी के भजन गाते हुए चल रहे थे। इसके पीछे देवी देवताओं की झांकियां बैंड बाजे ढोल नगाड़ों के साथ चल रही थीं। झांकियों में लक्ष्मी जी, श्री नाथ जी, गणेश जी, माताजी, राधा कृष्ण, विष्णु अवतार, रामलला, लक्ष्मण, श्रीनाथ जी, शिव पार्वती व सांवरिया सेट की झांकी प्रमुख थी। इनके पीछे महाराजा अग्रसेन जी का रथ अग्रबंधु हाथों से खींच कर चला रहे थे। सैफुद्दीन जगह समाज के लोग अग्रसेन जी की पूजा अर्चना कर रहे थे। सभी को प्रसाद का वितरण किया जा रहा था। शोभा यात्रा में डॉ. घोड़े, बग्घी, बैंड बाजे, अजमेर व नासिक के ढोल इत्यादि भी शामिल थे। जुलूस शोभा यात्रा का स्वागत करने वाली प्रमुख संस्थाओं में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन महिला शाखा, महाराजा अग्रसेन महिला समिति, अग्रवाल महिला संस्था, अग्रवाल समाज अजमेर, श्री अग्रोहा बंधु पश्चिम क्षेत्र संस्था, श्री अग्रवाल पंचायत सोलथंबा धड़ा,



घसेटी धड़ा, मारवाड़ी धड़ा, गंज धड़ा, निसवरियान धड़ा, फतहपुरिया धड़ा, केसरगंज व्यापारी मंडल, अग्र वंशज संस्थान, श्री श्याम प्रेम मंडल आदि समाज की अनेकों संस्थाओं व राजनैतिक दलों एवम संस्थाओं द्वारा स्वागत किया गया। अखिल भारतीय युवा सम्मेलन की ओर से जुलूस में शामिल पांच सी से ज्यादा लोगों के सफेक बंधे हुए एवम अग्रसेन जयन्ती महोत्सव समिति की ओर से दुपट्टे ओढ़ाकर अग्रबंधुओं का सम्मान किया गया। जुलूस में अग्रसेन जयन्ती के मुख्य संयोजक, सुनील गोयल, लोकेश शर्मा, शैलेंद्र अग्रवाल, विष्णु मंगल, दिनेश प्रणामी, राकेश हट्टका व राजेंद्र अग्रवाल सहित कई समाज बंधु

मातृ शक्ति, युवा व बच्चे शामिल थे। जुलूस सीताराम बाजार केसरगंज से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण कर अग्रसेन नगर पहुंचा जहां मोहल्ले वालों द्वारा अग्रसेन जी की पूजा अर्चना के साथ जुलूस का समापन हुआ। समिति के मुख्य संयोजक अशोक पंसारी ने बताया कि शुक्रवार 4 अक्टूबर को रात्रि 7:30 बजे से अग्रवाल स्कूल प्रांगण में समिति के द्वारा सांस्कृतिक संध्या एवम प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। सांस्कृतिक संध्या समाज के अग्र बंधुओं द्वारा तैयार की जाती है, जिसमें महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल के छात्र भी भाग लेते हैं। समारोह के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध समाजसेवी भामाशाह हनुमान दयाल बंसल होंगे। समारोह में अग्रवाल समाज के प्रतिभाशाली छात्र, छात्राएं, खिलाड़ी, प्रशासनिक अधिकारी आदि को अग्र गौरव रत्न से सम्मानित किया जाएगा।



## नवरात्रि के पहले दिन महंगा हुआ सोना, चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं

नई दिल्ली।

नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही घरेलू सराफा बाजार में सोने के भाव में तेजी आ गई है। हालांकि चांदी के भाव में गुरुवार को भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। सोने के भाव में उछाल आने के कारण सोना 500 से 560 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है। सोने की इस तेजी के कारण देश के ज्यादातर सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 77,610 रुपये से लेकर 77,460 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना 71,160 रुपये से लेकर 71,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी की कीमत में बदलाव नहीं होने के

कारण दिल्ली सराफा बाजार में ये चमकीली धातु भी 94,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 77,610 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 71,160 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 77,460 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 71,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 77,510 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 71,060 रुपये प्रति

ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना 77,460 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 71,010 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 77,460 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 71,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आया है। लखनऊ के सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना 77,610 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 71,160 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सराफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 71,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह जयपुर में 24 कैरेट सोना 77,610 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 71,160 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सराफा बाजार में भी तेजी आने की वजह से सोना महंगा हो गया है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना 77,460 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सराफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 71,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

### न्यूज़ ब्रीफ

पूर्व क्रिकेटर व कांग्रेस नेता अजहरुदीन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने तलब किया



नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (एचसीए) के वित्तीय घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुदीन को तलब किया है। ईडी ने उन्हें गुरुवार को पृष्ठछाछ के लिए बुलाया है। वे एचसीए के अध्यक्ष रह चुके हैं। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुदीन को वित्तीय घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पृष्ठछाछ के लिए तलब किया है। ईडी ने कांग्रेस नेता को यह पहला समन जारी किया है, जिसके तहत उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी के समक्ष पेश होना है। पूर्व क्रिकेटर पर अपने कार्यकाल के दौरान धन की हेराफेरी का आरोप है। यह हैदराबाद के उप्पल में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम के लिए डीजल जनरेटर, अग्निशमन प्रणाली और छतरियों की खरीद के लिए आवंटित 20 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी से जुड़ा मामला है। अजहरुदीन सितंबर 2019 में एचसीए अध्यक्ष चुने गए थे। एचएस काउंसिल के फंड की हेराफेरी के आरोप में एचएस ने के बाद जून 2021 में उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था।

वाहन निर्माताओं को अक्टूबर पर मरोसा, 40 फीसदी तक बिक्री की उम्मीद



मुंबई। वाहन निर्माताओं को अक्टूबर महीने पर भरोसा है। इसमें नवरात्रि, दशहरा और दिवाली शामिल हैं। उनका कहना है कि वार्षिक बिक्री की 30 से 40 फीसदी बिक्री इन्हीं दिनों पर होती है। कार निर्माता मोरामी मांग में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। होंडा मोटर, ह्यूंडै, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी जैसे वाहन निर्माता सुरत बिक्री को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक कदम उठा रहे हैं। मांग को बढ़ाने के लिए वाहन निर्माताओं के पास तीन मुख्य रणनीति हैं। इनमें नए मॉडल लॉन्च करना, पर्याप्त छूट देना और कीमतों में कटौती लागू करना। कई कंपनियों ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए पहले ही छूट दे चुकी हैं। टाटा मोटर्स और जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर्स ने चुनिंदा मॉडलों पर ऑफर बढ़ा दिए हैं। मारुति सुजुकी ने पहले ही कई मॉडलों की कीमतों में कटौती की। ऑल्टो के 10 और एस-प्रेंसो पर 40,000 तक की छूट, वैमनआर पर 30,000 तक का ऑफर, नेक्सो शोकरूम में जिम्मी पर 2.5 लाख की छूट, पुराने वाहनों को स्कैप करने पर 15,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस है। वहीं ह्यूंडै की ग्रैंड आई10 निओस पर 35,000 रुपये तक छूट, और रोडन पर 30,000 रुपये तक छूट, वेन्यू एसयूवी पर 45,000 तक फायदा है। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अगस्त में स्कॉपियो क्लासिक एसयूवी पर छूट को बढ़ाकर 1,00,000 रुपये किया गया है।

सितंबर में 47 कंपनियों ने आईपीओ से जुटाए 16152 करोड़

नई दिल्ली। निवेशकों के जबरदस्त उत्साह के चलते सितंबर में आईपीओ से 47 कंपनियों ने 16,152 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इसमें से 13 मुख्य प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध हुई हैं। एक्सचेंजों के आंकड़ों के मुताबिक, 13 प्रारंभिक सार्वजनिक निगम यानी आईपीओ में बजाज हाउसिंग ने सर्वाधिक 6,560 करोड़ व प्रीमियर एनर्जीज ने 2,830 करोड़ जुटाए। 34 कंपनियों छोटी एवं मझोली यानी एएसएमई थीं। 47 कंपनियों में से 61 फीसदी के शेयर इश्यू भाव से ऊपर कारोबार कर रहे हैं। ट्रेडव्स एंड रेटवल्स का एएसएमई आईपीओ 283 फीसदी लाभ के साथ सबसे आगे है। प्रीमियर एनर्जीज 146 फीसदी के साथ दूसरे स्थान पर है। आईपीओ में खुदरा निवेशकों की उत्साही भागीदारी ने एएसएमई में सदस्यता स्तर को आश्चर्यजनक ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। इस साल के आठ महीनों में आईपीओ बाजार तीन गुना बढ़ा है। इस अवधि में 227 आईपीओ सूचीबद्ध हुए। इन्होंने 12.2 अरब डॉलर जुटाए। 2023 में इसी अवधि के दौरान महज 4.3 अरब डॉलर की रकम जुटाई गई थी।

## कैप्टिव और वाणिज्यिक ब्लॉक से कोयला उत्पादन पहली छमाही में 32 फीसदी बढ़ा

नई दिल्ली।

देश में चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही एक अप्रैल, 2024 से 30 सितंबर, 2024 के दौरान पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की इसी अवधि की तुलना में कैप्टिव और वाणिज्यिक दोनों कोयला ब्लॉकों से कोयला उत्पादन और प्रेषण में वृद्धि दर्ज हुई है। पहली छमाही में कोयला उत्पादन सालाना आधार पर 32 फीसदी बढ़ा है जबकि कोयला डिस्पैच में 34 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई है। कोयला मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक बयान में बताया कि कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों से चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में कोयला उत्पादन सालाना आधार पर 32 फीसदी बढ़कर 79.72 मीट्रिक टन (एमटी) हो गया, जो बीते वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में 60.52 मीट्रिक टन था। इसी तरह दोनों कोयला ब्लॉक से कोयला डिस्पैच में भी सालाना आधार पर 34 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई है, जो बीते वित्त वर्ष की पहली छमाही के 65.37 मीट्रिक टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में 87.86 मीट्रिक टन हो गया है।

मंत्रालय के मुताबिक कैप्टिव और वाणिज्यिक दोनों कोयला ब्लॉकों से कोयला उत्पादन और प्रेषण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अलावा सितंबर महीने में कोयला उत्पादन में 32 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 10.40 मीट्रिक टन से बढ़कर चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 13.74 मीट्रिक टन हो गया है। इसी तरह सितंबर महीने में कोयला का प्रेषण सालाना आधार पर 47 फीसदी बढ़ा है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 9.68 मीट्रिक टन से बढ़कर चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 14.27 मीट्रिक टन हो गया है। कोयला मंत्रालय ने इस उपलब्धि के लिए कोयला कंपनियों और उद्योग भागीदारों सहित सभी हितधारकों के अमूल्य समर्थन और उनके अथक प्रयासों का सराहना की है। मंत्रालय ने कहा कि उसका प्राथमिक उद्देश्य देश को बढ़ती ऊर्जा की मांगों को पूरा करने के लिए एक स्थिर और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए कोयला के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि करना है। मंत्रालय का लक्ष्य कोयला क्षेत्र में दक्षता, स्थिरता और उत्पादन को बढ़ाना है।



दवाइयों, इंशोरेंस और ट्रेक्टरों पर जीएसटी दर कम कर सकती है सरकार

नई दिल्ली। जीएसटी दरों को युविसंगत बनाने के लिए बनी मंत्री स्तरीय समिति आम आदमी को बड़ी राहत दे सकती है। समिति कई दवाइयों, इंशोरेंस और ट्रेक्टरों पर जीएसटी दर को कम करके 5 फीसदी तक कम करने पर विचार कर रही है। वर्तमान में ट्रेक्टरों पर 12 फीसदी या 28 फीसदी जीएसटी लगता है, जो उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है। ट्रेक्टरों से होने वाले कम राजस्व की भरपाई मगने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर बढ़ाकर की जा सकती है। हेल्थ और टर्म इंशोरेंस पर जीएसटी दर में कटौती होने की भी संभावना है। स्वास्थ्य बीमा पर 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी तक जीएसटी किया जा सकता है, जबकि टर्म इंशोरेंस पर 5 फीसदी जीएसटी लगने की उम्मीद है। हालांकि, टर्म इंशोरेंस पर जीएसटी शून्य करने की मांग कई दिनों से उठ रही है, लेकिन इससे बीमा कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का नुकसान हो सकता है, ऐसे में टर्म इंशोरेंस पर 5 फीसदी जीएसटी का प्रस्ताव सबसे उपयुक्त माना जा रहा है। एक खबर के अनुसार मंत्री स्तरीय समिति जीएसटी की चार दरों को तीन में बदलने के पक्ष में नहीं है, लेकिन 12 फीसदी की दर वाली वस्तुओं की संख्या घटाने पर विचार हो रहा है। कुछ वस्तुओं को 5 फीसदी के स्लेब में डाला जा सकता है, जबकि कुछ अन्य वस्तुएं 18 फीसदी के स्लेब में स्थानांतरित की जा सकती हैं। समिति इस महीने के अंत तक अपनी सिफारिशें स्पष्ट करेगी। 19 अक्टूबर को बीमा पर चर्चा के लिए बैठक होगी और 20 अक्टूबर को दर युक्तिकरण पर वस्तु-विशेष पर चर्चा की जाएगी।



## कच्चा तेल 74 डॉलर प्रति बैरल के करीब, पेट्रोल-डीजल की कीमत स्थिर

नई दिल्ली।

इजरायल-ईरान जंग के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में तेजी दिख रही है। ब्रेंट क्रूड उछल कर 75 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड 71 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस निपणन कंपनियों ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में हफ्ते के चौथे दिन शुरुआती कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.77 डॉलर यानी 1.04 फीसदी की बढ़त के साथ 73.63 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। वहीं, वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड भी 0.82 डॉलर यानी 1.17 फीसदी की उछाल के साथ 70.92 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है।



इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक नई दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर पर टिका हुआ है। मुंबई में पेट्रोल 104.21 रुपये और डीजल 92.15 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं, कोलकाता में पेट्रोल का भाव 103.94 रुपये और डीजल 90.76 रुपये प्रति लीटर है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल 100.75 रुपये और डीजल 92.34 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।

## अमेरिका-भारत सीईओ फोरम ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने की जताई प्रतिबद्धता

वाशिंगटन/नई दिल्ली।

अमेरिका और भारत सीईओ फोरम ने द्विपक्षीय व्यापार एवं वाणिज्य का विस्तार करने, समावेशी आर्थिक वृद्धि और नवाचार को बढ़ाने तथा मजबूत साझेदारी को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई है। वाशिंगटन डीसी में 6वें भारत-अमेरिका सीईओ फोरम की बैठक हुई, जिसकी सह-अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी वाणिज्य सचिव जॉना रायमोंडो ने की।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को 'एक्स' पोस्ट पर दी जानकारी में कहा कि भारत-अमेरिका सीईओ फोरम के दौरान बुधवार को दोपहर के भोजन के दौरान अमेरिकी वाणिज्य सचिव जॉना रायमोंडो के साथ एक सार्थक बैठक हुई है। गोयल ने आगे लिखा है कि हमारी चर्चा रक्षा, अंतरिक्ष, औद्योगिक शहरों में अमेरिकी निवेश के अवसरों



जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तकनीक और अनुसंधान एवं विकास सहयोग की संभावनाओं पर केंद्रित थी। गोयल ने आगे कहा कि हमने आपसी विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत में आगामी 20 अक्टूबर को 'एक्स' पोस्ट पर चर्चा की।

पर भी चर्चा की। इस बैठक के दौरान रायमोंडो और वाणिज्य मंत्री ने पिछले दो वर्षों में मंच के सदस्यों द्वारा की गई सिफारिशों और उनकी पहलों की सराहना भी की गई। बैठक में मंच की उपलब्धियों की भी समीक्षा की गई। मंच के सदस्य 22 अमेरिकी कंपनियों और 25 भारतीय कंपनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

उल्लेखनीय है कि अमेरिका-भारत सीईओ फोरम एक ऐसा मंच है, जो द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने, दोनों देशों के बीच व्यापार एवं निवेश का विस्तार करने के उद्देश्य से संयुक्त सिफारिशें करने के लिए अमेरिका और भारत के व्यापार जगत के लोगों को एक साथ लाता है। इस मंच में लोकहोड मार्टिन के सीईओ एवं अध्यक्ष जेम्स टेसलेट और टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन 2023-2024 के लिए निजी क्षेत्र के सह-अध्यक्ष हैं।

## ग्लोबल मार्केट से कमजोर संकेत, एशिया में भी गिरावट का रुख

नई दिल्ली।

ईरान और इजरायल के बीच के तनाव की वजह से ग्लोबल मार्केट में गुरुवार को दबाव की स्थिति बन गई है। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र में दबाव में कारोबार करने के बाद सपाट स्तर पर बंद हुए। हालांकि डाउ जॉन्स पर्युपर्स गिरावट के साथ कारोबार करता नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार भी पिछले सत्र के दौरान बिकवाली के दबाव में कारोबार करने के बाद मिले-जुले परिणाम के साथ बंद हुए। एशियाई बाजार में भी दबाव बना हुआ है।

इजरायल और ईरान के बीच बने जंग के माहौल की वजह से अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान लगातार दबाव बना रहा। एएसएंडपी



500 इंडेक्स 0.01 प्रतिशत की सांकेतिक मजबूती के साथ 5,709.54 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह नैस्डेक ने 0.08 प्रतिशत की

मामूली बढ़त के साथ 17,925.12 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। हालांकि डाउ जॉन्स पर्युपर्स फिलहाल 108.47

अंक यानी 0.26 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 42,088.05 अंक के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार भी पिछले सत्र के दौरान मिले-जुले परिणामों के साथ बंद हुए। एफटीएसई इंडेक्स 0.17 प्रतिशत की तेजी के साथ 8,290.86 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह सीएसई इंडेक्स ने 0.05 प्रतिशत की मामूली मजबूती के साथ 7,577.59 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा डीएफएस इंडेक्स 0.25 प्रतिशत की गिरावट के साथ 19,164.75 अंक के स्तर पर बंद हुआ। एशियाई बाजार में भी आमतौर पर दबाव की

स्थिति बनी हुई है। एशिया के 9 बाजारों में से सिर्फ 1 सूचकांक मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, जबकि 5 सूचकांक गिरावट के साथ ताल निशान में बने हुए हैं। ताइवान, कोरिया और चीन में छुट्टी होने के कारण ताइवान वेटेड इंडेक्स, कोरिया इंडेक्स और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में कारोबार नहीं हो रहा है। एशियाई बाजारों में से सिर्फ निक्केई इंडेक्स 810.69 अंक यानी 2.14 प्रतिशत की जोरदार मजबूती के साथ 38,619.45 अंक पर पहुंचा हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर, गिफ्ट निफटी 258 अंक यानी 0.99 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 25,772 अंक तक गिर गया है। इसी तरह स्टूड्स टाइम्स इंडेक्स 0.18 प्रतिशत लुढ़क कर 3,578.31 अंक तक पहुंचा हुआ है। हंग सेंग इंडेक्स में बड़ी गिरावट आई है। फिलहाल ये सूचकांक 700.55 अंक यानी 3.22 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 21,743.18 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स 0.51 प्रतिशत फिलहाल कर 7,525.06 अंक के स्तर तक गिर गया है। इसके अलावा सेंट कपोजिट इंडेक्स 0.09 प्रतिशत टूट कर 1,450.05 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है।



## सीपीएल 2024 के फाइनल में पहुंची सेंट लूसिया किंग्स

**जॉर्ज टाउन।**  
सेंट लूसिया किंग्स ने प्रोविडेंस के गुयाना नेशनल स्टेडियम में मौसम बाधित मैच में मौजूदा चैंपियन गुयाना अमेजॉन वॉरियर्स पर 15 रन की जीत के साथ 2024 रिपब्लिक बैंक कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।

वॉरियर्स अब शुक्रवार को बारबाडोस रॉयल्स से भिड़ेगा और उस मैच का विजेता

रविवार को किंग्स के साथ फाइनल में भिड़ेगा। मैच में किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। फाफ डू प्लेसिस ने एक बार फिर अपनी टीम के लिए आगे बढ़कर नेतृत्व किया। उनके और जॉनसन चार्ल्स के बीच 124 रनों की शुरुआती साझेदारी हुई जिसकी बदौलत किंग्स अपने बीस ओवरों में 198/5 का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया।

चार्ल्स 45 गेंदों में 79 रन बनाकर मोईन अली की गेंद पर कीमती पॉल द्वारा लॉग ऑन बाउंड्री पर लपक गए। इसके बाद डू प्लेसिस अपने अच्छे अर्धशतक से चूक गए, किंग्स के कप्तान को शमर जोसेफ की गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज ने बेहतरीन कैच पकड़कर पवेलिनन

भेजा।

इसके बाद वॉरियर्स के गेंदबाजों ने बेहतरीन वापसी की और एक समय 200 के पार बढ़ रहे किंग्स के स्कोर को 119/8 रन पर रोक दिया। मोईन अली ने एक बार फिर गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन किया, उन्होंने अपने चार ओवरों में 24 रन देकर 2 विकेट लिए।

जवाब में, वॉरियर्स 13वें ओवर की समाप्ति पर 106/4 पर पहुंच गया था, इसके बाद बूदाबांदी शुरू हो गई जो जल्द ही भारी बारिश में बदल गई बारिश न रुकने पर मैच एक घंटे से अधिक समय बाद रद्द कर दिया गया।

जब मौसम ने हस्तक्षेप किया तो वॉरियर्स को शेष 42 गेंदों पर 92 रनों की आवश्यकता थी,

शिमरोन हेतमायर 18 गेंदों में 37 रन बनाकर खतरनाक दिख रहे थे और मोईन अली भी उनके साथ शामिल हुए थे।

हेतमायर ने नूर अहमद और रोस्टन चेज की गेंदों पर लगातार छक्के लगाए, हालांकि उनकी इस पारी के बावजूद वॉरियर्स 121 के आवश्यक डीएलएएस स्कोर से पीछे थी।

वॉरियर्स के पास शुक्रवार शाम को अंतिम एलिमिनेटर मैच में बारबाडोस रॉयल्स की जीत के साथ दोबारा फाइनल में जगह बनाने का मौका होगा। सेंट लूसिया किंग्स रविवार के फाइनल में दोनों टीमों में से किसी एक का इंतजार करेगी, जिसकी नजर उद्घाटन सीपीएल खिताब पर होगी।

### न्यूज़ ब्रीफ

#### वेस्टइंडीज के आगामी सफेद गेंद टैरे के लिए जोश बटलर की इंग्लिश टीम में वापसी

लंदन। वेस्टइंडीज के आगामी टैरे के लिए नियमित सीमित ओवरों के कप्तान जोश बटलर की इंग्लैंड की टीम में वापसी होगी। इंग्लिश टीम वेस्टइंडीज टैरे पर इस साल अक्टूबर-नवंबर में तीन टी20 और पांच वनडे खेलेगी। बटलर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 और वनडे मैचों में नहीं खेल पाए थे क्योंकि वे पिंडली की चोट से उबर रहे थे। इंग्लैंड ने टीम में तीन अनेकडे खिलाड़ियों को भी शामिल किया है, जिसमें 22 वर्षीय यॉर्कशायर के लेग स्पिनर जाफर चौहान शामिल हैं, जिन्हें सीनियर टीम में पहली बार शामिल किया गया है। वह साउथ एशियन क्रिकेट अकादमी के पहले स्नातक हैं। अन्य दो अनेकडे खिलाड़ी जॉन टर्नर और डेन मूसली हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में टीम का हिस्सा हैं। इंग्लैंड ने 14 खिलाड़ियों की शुरुआती टीम चुनी है, और 28 अक्टूबर को रावलपिंडी में होने वाले सीरीज के तीसरे मैच के शुरू होने के बाद पाकिस्तान में टैरे टी टीम से दो और खिलाड़ी शामिल किए जाएंगे। बटलर की जगह ऑस्ट्रेलिया सीरीज में इंग्लैंड की अगुआई करने वाले हेरी ब्रुक टैरे टीम का हिस्सा हैं। कैरेबियाई टैरे की शुरुआत वनडे से होगी - पहले दो मैच 31 अक्टूबर और 2 नवंबर को एंटीगुआ में होंगे, उसके बाद 6 नवंबर को तीसरे मैच के लिए बारबाडोस जाएंगे। पांच टी20 मैच 9 से 17 नवंबर के बीच खेले जाएंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम: जोस बटलर, जोफ़ा आर्चर, जैकब बेथेल, जाफर चौहान, सैम करन, विल जैक्स, लियाम लिविंगस्टोन, साकिब महमूद, डेन मूसली, जेमी ओवर्टन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, रीस टॉपले, जॉन टर्नर।

**मेसी की फीफा विश्व कप क्वालीफायर के लिए अर्जेंटीना टीम में वापसी**  
ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना फुटबॉल संघ ने कहा है कि स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी फीफा विश्वकप क्वालीफायर में खेलेंगे। टखने की चोट के कारण पिछले कुछ समय से मैदान से बाहर थे। फुटबॉल संघ के अनुसार मेसी वेनेजुएला और बोलीविया के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालीफायर में खेलेंगे। मेसी टखने की चोट के कारण चिली और कोलंबिया के खिलाफ क्विंटर में फिब्सलेस्टे के खिलाफ क्वालीफायर से बाहर हो गये थे हालांकि अब वह फिट हैं और अपने कप्तान डेनिस इरिगोयन की ओर से उन्होंने मैदान में वापसी कर ली है। अर्जेंटीना का मुकाबला 10 अक्टूबर को वेनेजुएला से और 15 अक्टूबर को बोलीविया से होगा। अभी अर्जेंटीना 10 टीमों के दक्षिण अमेरिकी समूह में आठ मैचों में 18 अंकों लेकर शीर्ष पर है। वह दूसरे स्थान पर चढ़ रहे कोलंबिया से दो अंक आगे है। इसमें से शीर्ष छह टीमों 2026 विश्व कप के लिए क्वालीफाई करेंगी, जिसकी मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा करेंगे। वहीं सातवें स्थान पर रहने वाली टीम अंतरमहाद्वीपीय प्लेऑफ में खेलेंगी। अर्जेंटीना टीम: डिब्रेडस - गॉल्गो मॉर्टिएल (सोबिला), नहुएल मॉरिनो (एटलेटिको मैनडो), क्रिस्टियन रोमेरो (टोटेनहम), जर्मन पेजेला (रिवर प्लेट), मार्कोस एक्वुना (रिवर प्लेट), लियोनार्डो बरनेडी (लिंसफेल्ड मार्सिनो), निकोलस ओटांपेडी (बेनफिका), लॉरेन्सो मार्टिनेज (मैनचेस्टर यूनाइटेड), निकोलस टेरिगियाफिको (वॉलन)।

#### मेसी की फीफा विश्व कप क्वालीफायर के लिए अर्जेंटीना टीम में वापसी

ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना फुटबॉल संघ ने कहा है कि स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी फीफा विश्वकप क्वालीफायर में खेलेंगे। टखने की चोट के कारण पिछले कुछ समय से मैदान से बाहर थे। फुटबॉल संघ के अनुसार मेसी वेनेजुएला और बोलीविया के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालीफायर में खेलेंगे। मेसी टखने की चोट के कारण चिली और कोलंबिया के खिलाफ क्विंटर में फिब्सलेस्टे के खिलाफ क्वालीफायर से बाहर हो गये थे हालांकि अब वह फिट हैं और अपने कप्तान डेनिस इरिगोयन की ओर से उन्होंने मैदान में वापसी कर ली है। अर्जेंटीना का मुकाबला 10 अक्टूबर को वेनेजुएला से और 15 अक्टूबर को बोलीविया से होगा। अभी अर्जेंटीना 10 टीमों के दक्षिण अमेरिकी समूह में आठ मैचों में 18 अंकों लेकर शीर्ष पर है। वह दूसरे स्थान पर चढ़ रहे कोलंबिया से दो अंक आगे है। इसमें से शीर्ष छह टीमों 2026 विश्व कप के लिए क्वालीफाई करेंगी, जिसकी मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा करेंगे। वहीं सातवें स्थान पर रहने वाली टीम अंतरमहाद्वीपीय प्लेऑफ में खेलेंगी। अर्जेंटीना टीम: डिब्रेडस - गॉल्गो मॉर्टिएल (सोबिला), नहुएल मॉरिनो (एटलेटिको मैनडो), क्रिस्टियन रोमेरो (टोटेनहम), जर्मन पेजेला (रिवर प्लेट), मार्कोस एक्वुना (रिवर प्लेट), लियोनार्डो बरनेडी (लिंसफेल्ड मार्सिनो), निकोलस ओटांपेडी (बेनफिका), लॉरेन्सो मार्टिनेज (मैनचेस्टर यूनाइटेड), निकोलस टेरिगियाफिको (वॉलन)।

**एशिया रग्बी सेवेंस टूर्नामेंट: शिखा, मोहित की अगुआई में भारतीय टीम शुक्रवार को करेगी अपने अभियान की शुरुआत**  
काठमांडू। भारतीय रग्बी पुरुष और महिला टीमों 4 और 5 अक्टूबर को यहां होने वाली एशिया रग्बी सेवेंस टूर्नामेंट (एआरएसटी) में भाग लेंगी। शिखा यादव और मोहित खत्री को अपनी-अपनी टीमों का कप्तान बनाया गया है। पुरुष टीम शुक्रवार को बांग्लादेश के खिलाफ, जबकि महिला टीम श्रीलंका के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। महिला टीम पिछले तीन सालों से रजत पदक जीतने के अपने सिलसिले को इस बार स्वर्ण में बदलना चाहेंगी। दूसरी ओर, पिछले साल पांचवें स्थान पर रहने वाली पुरुष टीम अपने प्रदर्शन को बेहतर करने और अपने स्तर को ऊपर उठाने की कोशिश करेगी। पुरुष और महिला दोनों टीमों 2 अक्टूबर को नेपाल के लिए रवाना हुईं। नेपाल रवाना होने से पहले विशेष रूप से नए भारतीय 7एस हेड कोच वैसासे सेरेवेदी के नेतृत्व में एशिया रग्बी सेवेंस टूर्नामेंट की तैयारी के लिए साई, कोलकाता में कठोर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था। भारतीय रग्बी फुटबॉल संघ के अध्यक्ष राहुल बोस ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय 7एस टीमों का हमेशा से लक्ष्य एशिया रग्बी सेवेंस सीरीज से आगे पहुंचना रहा है।

## 29वीं फेनेस्टा ओपन राष्ट्रीय टेनिस चैम्पियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे विष्णु, माया

**नई दिल्ली।**  
एशियाई खेलों के पदक विजेता विष्णु वर्धन और युवा माया रेवती ने बुधवार को नई दिल्ली के डीएलटीए कॉम्प्लेक्स में चल रहे 29वें फेनेस्टा ओपन नेशनल टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

शीर्ष वरीयता प्राप्त और पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन विष्णु को मणिपुर के भिक्की सागोलेशेम के खिलाफ अपने दूसरे दौर के मैच में कड़ी मेहनत करनी पड़ी और अंततः उन्होंने 6-3, 5-7, 6-2 से जीत हासिल की। तेलंगाना के खिलाड़ी ने जोरदार शुरुआत की, भिक्की की सर्विस दो बार टोडकर 5-1 की बढ़त ले ली। भिक्की ने लगातार दो गेम जीतकर वापसी की और पहला सेट जीतकर जीता। हालांकि, विष्णु ने पहला सेट जीतने के लिए अपने अनुभव का इस्तेमाल किया।

दूसरे सेट में कड़ी टक्कर देखने को मिली, स्कोर 5-5 से बराबर था, लेकिन भिक्की ने अपने खेल को बेहतर बनाते हुए अगले दो गेम जीतकर मैच को बराबर कर दिया। अंतिम सेट में विष्णु ने दबदबा बनाते हुए 6-2 से जीत दर्ज की।

महिला एकल में तमिलनाडु की युवा माया ने तेलंगाना की सोम्या रॉडे को हराकर एक और दमदार प्रदर्शन किया। 15 वर्षीय माया, जिनके नाम आईटीएफ जूनियर्स में लगातार सबसे लंबे समय तक जीत का रिकॉर्ड है, ने पूरे नियंत्रण में रहते हुए सीधे सेटों में 6-3, 6-0 से जीत दर्ज की।

पिछले साल की फाइनलिस्ट गुजरात की वैदेही चौधरी ने दिल्ली की रिया सचदेवा को 6-0, 6-0 से हराकर अंतिम आठ में जगह बनाई, जबकि अनुभवी खिलाड़ी रिया भाटिया ने झारखंड की नेमहा किस्मेट को सीधे सेटों में 6-2, 6-2 से हराया।

डीसीएम श्रीराम लिमिटेड द्वारा समर्थित और अखिल भारतीय टेनिस संघ और दिल्ली लॉन टेनिस संघ के तत्वावधान में आयोजित भारत का सबसे बड़ा घरेलू टेनिस टूर्नामेंट देश भर की प्रतिभाओं को सामने ला रहा है। टूर्नामेंट के पिछले संस्करणों में भारत के कुछ शीर्ष टेनिस सितारे शामिल हो चुके हैं, जिनमें रोहन



बोपना, सोमदेव देववर्मन, युकी भांबरी, सािनया मिर्जा और रुतुजा भोसले शामिल हैं। पुरुष एकल में कुछ आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिले, जैसे नितिन कुमार सिन्हा (आरएसपीबी) ने ओडिशा के चौथे वरीय कबीर हंस को 7-6(5), 6-2

### महिला टी20 विश्वकप: पहली बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट में हो रहा स्मार्ट रिप्ले सिस्टम का इस्तेमाल

दुबई। आईपीएल 2024 और द इंडेड के बाद अब महिला टी20 विश्व कप 2024 में इस बार स्मार्ट रिप्ले सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। ये पहली बार है जब किसी आईसीसी टूर्नामेंट में आईसीसी स्मार्ट रिप्ले सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं। इसके तहत हर मैच में कमेंट्री के लिए कम से कम 28 कैमरे रहेंगे। इससे बेहतर प्रमाण मिलने की उम्मीद है। सभी मैचों में डिजीटल रिप्ले सिस्टम (डीआरएस) भी उपलब्ध होगा, इसमें हॉक-आई स्मार्ट रिप्ले सिस्टम का प्रयोग होता है। इससे टीवी अपायर को विभिन्न कोणों से एकसाथ आने वाले फुटज की तुरंत समीक्षा कर सटीक फैसला देने में सहायता मिलेगी। वहीं स्मार्ट रिप्ले सिस्टम के तहत टीवी अपायर को सीधे दो हॉक-आई ऑपरेटर्स से जानकारी मिलेगी, जो अपायर के साथ एक ही कमरे में बैठेंगे और उन्हें मैदान में लगे हॉक-आई के आठ हाई-स्पीड कैमरों से ली गयी तस्वीरों को दिखाएंगे। अब तक टीवी अपायर निदेशक, तीसरे अपायर और हॉक-आई ऑपरेटर्स के बीच मध्यस्थ का काम करते थे पर अब इसकी जरूरत नहीं रहेगी। यह सिस्टम टीवी अपायर को पहले से अधिक दृश्य देखने की सुविधा भी देता है, जिसमें रिप्ले-स्क्रीन भी शामिल है। स्मार्ट रिप्ले सिस्टम के तहत स्टंपिंग रेफरल के मामले में भी टीवी अपायर हॉक-आई ऑपरेटर्स से रिप्ले-स्क्रीन (दो भागों में बंटी हुई स्क्रीन) के विजुअल मांग सकते हैं जिससे अपायर के लिए फैसला लेना आसान रहेगा।

से हराया और मणिपुर के बुशन हाओबाम ने तमिलनाडु के छठे वरीय रंजीत वीएम को 6-1, 6-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

गुजरात के स्मित पटेल (9वीं वरीयता प्राप्त) ने लड़कों के अंडर-18 एकल में अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखते हुए चंडीगढ़ के आठवें वरीयता प्राप्त अक्षत दुल को तीसरे दौर में 7-5, 6-0 से हराया।

लड़कियों के अंडर-18 एकल में, महाराष्ट्र की सेजल भुटाडा (14वीं वरीयता प्राप्त) ने शीर्ष वरीयता प्राप्त लक्ष्मी डांडू को तीन सेटों के रोमांचक मुकाबले में 6-4, 5-7, 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

प्रतिष्ठित खिताबों के साथ-साथ विजेताओं को जूनियर श्रेणियों में फिट भूते के साथ कुल 21.55 लाख रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि भी मिलेगी। अंडर-16 और अंडर-14 एकल स्पर्धाओं के विजेता और उपविजेता को 25,000 रुपये की टेनिस छात्रवृत्ति भी मिलेगी। लड़कों और लड़कियों के अंडर-16 और अंडर-14 क्वालीफाईंग और मुख्य ड्रॉ मैच 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक होंगे।

## भ्रष्टाचार विरोधी संहिता के उल्लंघन के लिए श्रीलंकाई स्पिनर जयविक्रमा पर लगा एक साल का प्रतिबंध



**नई दिल्ली।**  
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने श्रीलंका के बाएं हाथ के स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा पर एक वर्ष के लिए सभी प्रकार के क्रिकेट से प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें से अंतिम छह महीने निलंबित हैं, क्योंकि उन्होंने वैश्विक संस्था की भ्रष्टाचार विरोधी संहिता का उल्लंघन करने की बात स्वीकार की है।

अगस्त में आईसीसी ने जयविक्रमा पर संहिता के दो उल्लंघनों का आरोप लगाया। उन्होंने अनुच्छेद 2.4.7 का उल्लंघन करना स्वीकार किया है, जो एसीयू [भ्रष्टाचार निरोधक इकाई] द्वारा की जा रही किसी भी जांच में बाधा डालना या देरी करना, जिसमें किसी

भी दस्तावेज या अन्य जानकारी को छिपाना, छेड़छाड़ करना या नष्ट करना शामिल है जो उस जांच के लिए प्रासंगिक हो सकती है और/या जो सबूत हो सकती है या भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के तहत भ्रष्ट आचरण के सबूत की खोज का कारण बन सकती है, से संबंधित है।

आईसीसी की विज्ञप्ति के अनुसार, ये आरोप अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और लंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) से संबंधित हैं। अप्रैल 2021 में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में अपना अंतरराष्ट्रीय पदार्पण करने वाले जयविक्रमा ने पांच टेस्ट, पांच वनडे और पांच टी20 मैच खेले हैं। श्रीलंका के लिए उनका आखिरी प्रदर्शन 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज में था।

एलपीएल 2021 में, जयविक्रमा जाफना किंग्स की टीम का हिस्सा थे जिसने अपना दूसरा खिताब जीता। उन्होंने उन सीजन में एक मैच खेला था, जिसमें उन्होंने दो विकेट लिए थे। एलपीएल 2024 में, वह दानुला सिक्सेस के लिए खेले।

## आईएसएल: ओडिशा एफसी के सामने केरला ब्लास्टर्स चुनौती

**भुवनेश्वर।**  
ओडिशा एफसी की टीम आज शाम अपने घरेलू मैदान कलिंगा स्टेडियम में खेले जाने वाले इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) 2024-25 मुकाबले में केरला ब्लास्टर्स एफसी को मेजबानी करेगी। दोनों टीमों ने अब तक अपने लीग मैचों में एक-एक जीत हासिल की है। ओडिशा ने पिछले सत्रों में अग्रणी केरला ब्लास्टर्स एफसी ने गुवाहाटी में नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी से 1-1 का ड्रा खेला। उसे आगामी मुकाबले में जीत की राह पर लौटने की उम्मीद होगी।

ओडिशा एफसी के स्पेनिश हेड कोच सर्जियो लोबेरा ने केरला ब्लास्टर्स के खिलाफ अपने 11 मुकाबलों में से नौ जीते हैं, जो 82वें की सफलता दर है। इस कैलेंडर वर्ष में, केरला ब्लास्टर्स ने लीग के अपने आठ मैचों में केवल एक जीत हासिल की है। उन्होंने इन सभी मैचों में गोल खाए हैं, और यह निश्चित रूप कोच मिकेल स्ट्रेरे के लिए चिंता का विषय होगा।

ओडिशा एफसी और उसके फैंस लगातार दो हार के सिलसिले के टूटने से खुश हैं। लोबेरा ने मुश्किल समय में टीम का हौसला बढ़ाने के लिए फैंस के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूँ



क्योंकि आखिरकार, हमने तीन महत्वपूर्ण अंक बटोर लिए। हर बार जब अधिक फैंस स्टेडियम आते हैं, तो वे हमें मुश्किल क्षणों से निकालते हैं। मैं इनका समर्थन पाकर खुश हूँ।

केरला ब्लास्टर्स एफसी के स्वीडिश हेड कोच मिकेल स्ट्रेरे को भरोसा है कि सीजन के शुरुआती तीन मैचों के बाद उनकी टीम सही रास्ते पर है।

स्ट्रेरे ने कहा, मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत दुखी भी नहीं हूँ। हम और बेहतर कर सकते हैं। हम अभी भी मजबूत हैं और अंक जीत रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं। दोनों टीमों आईएसएल में 23 बार एक-दूसरे से खेल चुकी हैं, जिसमें केरला ब्लास्टर्स ने नौ मुकाबले जीते हैं, जबकि ओडिशा को सात जीत मिली है। सात मुकाबले ड्रा रहा है।

## डायमंड लीग 2025: चीन करेगा शुरुआती दो स्पर्धाओं की मेजबानी, ज्यूरिख में होगा फाइनल

**नई दिल्ली।**  
ज्यूरिख अगस्त में 2025 डायमंड लीग के दो दिवसीय सीजन के समापन समारोह का आयोजन करेगा, जबकि प्रतियोगिता की शुरुआत चीन में दो मुकाबलों के साथ होगी। आयोजकों ने बुधवार को उक्त जानकारी दी। आयोजकों ने बुधवार को बताया कि ज्यूरिख अगस्त में 2025 डायमंड लीग के दो दिवसीय सीजन के समापन समारोह का आयोजन करेगा, जबकि प्रतियोगिता की शुरुआत चीन में दो मैच से होगी। ट्रेक एंड फील्ड की प्रीमियर वन-डे मॉर्टिंग सीरीज के 16वें संस्करण के अंतिम कैलेंडर में 14 देशों और चार महाद्वीपों के 15 मेजबान शहर शामिल हैं।

शंघाई/सूज़ो से एक हफ्ते पहले 26 अप्रैल को जियामेन उद्घाटन कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। जून में रोम में होने वाली पहली यूरोपीय मीट से पहले मई में दोहा और रवात में मॉटिंग निर्धारित हैं।

ओस्ट्रो, स्टॉकहोम और पेरिस में होने वाले आयोजनों के बाद, प्रतियोगिता संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की जाएगी, जहाँ जुलाई के 2025 संस्करण में 9 मिलियन डॉलर से अधिक आयोजन के यूजीयू में प्रीफॉन्टेन क्लासिक का आयोजन किया जाएगा।



**2025 डायमंड लीग कैलेंडर:**  
जियामेन - 26 अप्रैल, शंघाई/सूज़ो - 3 मई, दोहा - 16 मई, रवात/माराकेच - 25 मई, रोम - 6 जून, ओस्ट्रो - 12 जून, स्टॉकहोम - 15 जून, पेरिस - 20 जून, यूजीयू - 5 जुलाई, मोनाको - 11 जुलाई, लंदन - 19 जुलाई, सिलेसिया - 16 अगस्त, वॉजने - 20 अगस्त, ब्यूससेस - 22 अगस्त, ज्यूरिख - 27-28 अगस्त।

## सविता ने लैंगिक समानता के लिए की हॉकी इंडिया के प्रतिबद्धता की सराहना

**नई दिल्ली।**  
भारतीय महिला हॉकी गोलकीपर और पूर्व कप्तान सविता पुनिया ने हॉकी इंडिया की समग्र रूप से लैंगिक समानता के प्रति प्रतिबद्धता और आगामी हॉकी इंडिया लीग (एचआईएल) 2024-25 की सराहना की है। एचआईएल के इतिहास में पहली बार, इस टूर्नामेंट में न केवल पुरुष टीम बल्कि महिला टीमों भी भाग लेंगी, जिसमें दोनों श्रेणियों को समान महत्व दिया जाएगा। एचआईएल 2024-25 दिसंबर 2024 के अंतिम सप्ताह से फरवरी 2025 के पहले सप्ताह तक अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) द्वारा स्वीकृत अवधि में आयोजित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में 8 पुरुष टीमों और 6 महिला टीमों भाग लेंगी। विशेष रूप से, पुरुष और महिला एचआईएल एक साथ चलेंगे, जो वैश्विक खेल लोगों में एक अनूठा क्षण होगा।



सविता ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए हॉकी इंडिया के हवाले से कहा, पुरुष और महिला एचआईएल एक साथ चलेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य खेल में पहले समान आयोजन की जाएगी, जहाँ जुलाई किया है कि पुरुष और महिला दोनों टीमों के साथ समान व्यवहार किया जाए। उदाहरण के लिए, जब पुरुष और महिला टीमों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैच या प्रतियोगिता जीतती हैं, तो दोनों के लिए पुरस्कार राशि समान होती है। यह खेलों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए हॉकी इंडिया के समर्पण के बारे में बहुत कुछ बताता है। एक खिलाड़ी के रूप में, एक ऐसे संगठन का हिस्सा बनना सशक्त महसूस होता है जो महिला एथलीटों के योगदान को उनके पुरुष समकक्षों जितना ही महत्व देता है।

हॉकी इंडिया लंबे समय से पुरुष और महिला राष्ट्रीय टीमों के बीच समानता बनाए

रखने के लिए प्रतिबद्ध है। चाहे सुविधाओं, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन या मैच पुरस्कारों के मामले में, दोनों टीमों को समान समर्थन मिलता है। इसमें अंतरराष्ट्रीय मैच जीतने के लिए समान विजयी प्रोत्साहन और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में ट्रांफी हासिल करने के लिए समान पुरस्कार राशि प्रदान करना शामिल है। सविता ने उभरती हुई प्रतिभाओं को निखारने में महिला एचआईएल के प्रभाव पर प्रकाश डाला और कहा, एक समर्थित महिला लीग की शुरुआत एक गेम चेंजर है और निश्चित रूप से भारतीय हॉकी के लिए एक बड़ा कदम है। युवा महिला एथलीटों के लिए, यह मंच न केवल उन्हें उच्च स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका देगा बल्कि खिलाड़ियों के रूप में भी सुधार करेगा। यह उनकी प्रतिभा को दिखाने और रैंकों में ऊपर चढ़ने का एक शानदार अवसर है, और मुझे विश्वास है कि हम आने वाले सीजन में कुछ असाधारण प्रदर्शन देखेंगे।



बच्चों में मोटापा काफी तेजी से बढ़ रही है। पहले भले ही ऐसे बच्चों को गोलू-मोलू कहकर पसंद किया जाता हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बच्चों में मोटापे की समस्या और उससे सेहत को होने वाले नुकसानों के बारे में व्यापक चर्चा की जाती है। बच्चों में मोटापा कई कारणों से हो सकता है। इनमें अनुवांशिक कारणों को तो हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं, जिन पर यदि नजर रखी जाए, तो हम समय रहते बच्चों को मोटापे से बचा सकते हैं।

# बच्चे को मोटा बना सकती हैं ये आदतें

## शारीरिक गतिविधियों का अभाव

उच्चलकूद करना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। इससे न केवल उनका मानसिक विकास होता है, बल्कि इससे उनका शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसके साथ ही बच्चों को छोटी-मोटी शारीरिक गतिविधियों में शामिल करें। रसोई तक अपने बर्तन खुद रख कर आना। लाइट का स्विच ऑफ करने उठना। पानी पीने जाना, घर की सीढ़ियां चढ़ना, जैसे काम भी आजकल बच्चे नहीं करते। इससे उनमें आलस्य आ जाता है और शरीर पर बेकार की चर्बी जमा होने लगती है। इसके साथ ही आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे के साथ घूमने जाएं, उन्हें आउटडोर गेम्स में शामिल करें। वर्ना आजकल के बच्चों के लिए गेम्स का अर्थ कंप्यूटर अथवा ऑनलाइन गेम्स हो गया है।

## लिक्रिड कैलोरी का अधिक सेवन

शुगर ड्रिंक और फ्रूट ड्रिंक बच्चों के पसंदीदा पेय पदार्थ हैं, लेकिन इससे बच्चों को और कुछ नहीं बस चीनी और कैलोरी ही मिलती है। आपको चाहिए कि बच्चों को ऐसे पेय पदार्थों के सेवन से रोकें क्योंकि इनसे उन्हें पोषण नहीं मिलता, बल्कि उनकी सेहत को नुकसान ही पहुंचता है।

## पर्याप्त नींद न लेना

देर रात तक जागते रहना आजकल की जीवनशैली का हिस्सा बन गया है। लेकिन, आपके बच्चों के लिए यह बिल्कुल ही फायदेमंद नहीं है। मोटापे और नींद के बीच गहरा संबंध है। शोध इस बात को



प्रमाणित कर चुके हैं कि जो बच्चे पूरी नींद नहीं लेते, उनके मोटापे से ग्रस्त होने की आशंका बहुत अधिक होती है। इसके साथ ही ज्यादा नींद भी आपके बच्चों के लिए अच्छी नहीं। इससे आपका बच्चा आलसी हो सकता है। ध्यान रहे आपके बच्चे

के लिए नौ से दस घंटे की नींद काफी है।

## जंक फूड का सेवन

बच्चों में मोटापे का अहम कारण जंक फूड का सेवन है। जरा सी भूख लगने पर ही बच्चे बर्गर, पिज्जा या कोई

अन्य जंक फूड खा लेते हैं। ये हाई कैलोरी खाद्य पदार्थ बच्चों की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में अभिभावकों का उत्तरदायित्व बनता है कि वे अपने बच्चों के खानपान का ध्यान रखें। बच्चों की जिद के चक्कर में आप उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ न करें। कभी-कभार इस प्रकार का भोजन ठीक है, लेकिन इसका नियमित सेवन सेहत के नुकसानदेह है।

## टीवी हे बीमारी

एक वैज्ञानिक शोध में यह बात सामने आई थी कि जो बच्चे टीवी के सामने अधिक समय बिताते हैं, वे सामान्य बच्चों से अधिक मोटे होते हैं। टीवी मनोरंजन तक तो ठीक है, लेकिन इसके सामने अधिक समय तक बैठे रहना बच्चों को मोटा और धूलधुला बना सकता है। लास एंजेलिस स्थित पॉपिंगटन बायोमैडिकल रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने शोध में टीवी देखने एवं बचपन में मोटापे के बीच सम्बंधों को सामने रखा।

## भोजन अगर न हो सही

बच्चे के आहार में फाइटो युक्त पदार्थों को शामिल करें। इससे उन्हें ऊर्जा भी मिलेगी और साथ ही उनका पेट भी लंबे समय तक भरा रहेगा। राजमा, ब्रोकोली, मटर, नाशपति, सालुत अनाज का पास्ता, ओटमील आदि फाइबर के उच्च स्रोत हैं। इसके साथ ही आप उन्हें फल और सब्जियों का सेवन भी करवाएं। इनके अभाव से ही बच्चे में मोटापा बढ़ सकता है।

## इस कारण से बदलता है तिल और मस्से का आकार



ड्राय स्किन हो, ऑयली स्किन, सेंसेटिव स्किन या नार्मल स्किन हो। त्वचा के रंग या त्वचा पर पाए जाने वाले तिल का आकार या रंग बदलने लगे तो यह स्किन कैन्सर के लक्षण हैं। अगर आपके शरीर पर मौजूद तिल अथवा मस्सों का आकार बदल रहा है, तो लापरवाही भरी पड़ सकती है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें, क्योंकि यह मेलानोमा कैन्सर भी हो सकता है। मेलानोमा एक किस्म का स्किन कैन्सर होता है। त्वचा के रंग का निर्माण करने वाले मेलानोसाइट्स में यह रोग होता है।

क्या है कारण  
इस रोग का पहला कारण है सूरज की तेज किरणें। ज्यादा देर तक सूरज की रोशनी में रहने पर त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान होता है। इसके अलावा सूरज से भी यह रोग फैलता है। अगर घर में किसी एक को हो जाए, तो दूसरे में भी यह रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। त्वचा के अन्य कैन्सर के मुकाबले यह ज्यादा गंभीर होता है। धीरे-धीरे यह कैन्सर शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित करने लगता है। यहां तक कि इस रोग के चलते हड्डियों को भी नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है।

लक्षण कहे हैं  
तिल और मस्सों से इस रोग की शुरुआत होती है। सबसे पहले इनके आकार में बदलाव होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा त्वचा पर अलग-अलग आकार के दाग-धब्बे बनने लगते हैं। जैसे-जैसे ये दाग पुराने होते हैं, उनमें खुजली होने लगती है। अगर तुरंत इसका इलाज नहीं कराया गया, तो दाग के चारों तरफ काले निशान बनने लगते हैं। खुजलाने पर खून निकलने लगता है। धीरे-धीरे दाग पूरी त्वचा पर फैलने लगते हैं। इनका रंग भी त्वचा के रंग से गहरा या काला होता जाता है। कई बार ये दाग-धब्बे सफेद, गुलाबी, लाल और नीले रंग के भी होते हैं।

क्या है उपचार  
इस बीमारी से बचना है, तो ज्यादा देर धूप में न रहें। जरूरत पड़ने पर जाना पड़े, तो सनस्क्रीन लोशन लगाकर और शरीर को ठीक से ढंकर ही निकलें। बीमारी होने की आशंका होने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें। शुरुआत में ही अगर इलाज कराया जाए, तो छोटी सी सर्जरी करके इन दाग-धब्बों को ठीक कर दिया जाता है। मेलानोमा एक तरह का कैन्सर ही होता है। जो लोग ज्यादा सन-बाथ लेते हैं या धूप में रहते हैं, उनमें ये बीमारी ज्यादा होती है। गोरे लोग इसकी चपेट में ज्यादा आते हैं। तिल और मस्सों से इसकी शुरुआत होती है। इनका साइज बदलना शुरू हो जाता है। अगर कोई भी कैन्सर एक ही जगह है, तो उसे सर्जरी के जरिए निकाल देते हैं, लेकिन अगर वह शरीर में फैल गया है, तो कीमो-थेरेपी या रेडियो-थेरेपी से उपचार करते हैं।

## बार-बार गर्भपात से महिलाओं को होते हैं ये नुकसान



अनचाहे गर्भ को गिराने के लिए जोड़े अक्सर गर्भपात का सहारा लेते हैं लेकिन बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि लगातार गर्भपात कराना जीवन के लिए खतरनाक है। लगातार गर्भपात करवाने से भविष्य में होने वाली प्रेग्नेंसी कष्टदायक हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं ज्यादा गर्भपात कराती हैं। उनमें अवधि पूर्व जन्म या शिशु का वजन बहुत कम होना आदि परेशानियां पैदा होती हैं, जिन महिलाओं ने 3 या इससे अधिक बार गर्भपात कराया है। उनकी गर्भाशय ग्रीवा के लिए खतरा है। इसके अलावा इससे कुछ समय बाद अपने आप गर्भपात भी हो सकता है।

बहुत से लोगों को आजकल बांझपन, अस्थानिक गर्भावस्था या बच्चे के जन्म की परेशानी आदि समस्याएं उठानी पड़ती हैं। बांझपन से तात्पर्य है कि 12 माह की कोशिशों के बावजूद भी बच्चा नहीं लगना। सामान्य रूप से महिलाओं में बांझपन होने के कई कारण हैं लेकिन बहुत से डॉक्टरों और परेशान से गर्भपात कराने को इसका प्रमुख कारण मानते हैं।

## गर्भपात करवाने से शरीर को नुकसान

**बच्चा गिरना:** गर्भपात कराने से भी कई बार गर्भाशय ग्रीवा क्षतिग्रस्त हो जाती है तो आगे गर्भपात में परेशानी हो सकती है। यदि गर्भपात के दौरान बच्चेदानी क्षतिग्रस्त हो जाती है तो यह बच्चे के लिए भी खतरनाक होती है।

**समय पूर्व प्रसव:** ज्यादा बार गर्भपात कराने का यह एक मुख्य कारण यह है कि इससे समय पूर्व प्रसव के अवसर बढ़ जाते हैं और गर्भ नाल इससे गलत रूप से बढ़ जाती है।

**अस्थानिक गर्भावस्था:** बार-बार गर्भपात कराने से अस्थानिक गर्भधारण का खतरा पैदा होता है। अस्थानिक गर्भावस्था ना केवल जीवन के खतरनाक है बल्कि इससे प्रजनन क्षमता भी कम हो सकती है।

**पेट के सूजन की बीमारी:** पेट के सूजन की बीमारी भी बार-बार गर्भपात से होती है। पीआईडी एक खतरनाक बीमारी है जो कि बांझपन का कारण भी बन सकती है। यह फैलोपियन ट्यूब के ऊतकों पर घाव पैदा कर सकती है, जिससे आगे चलकर प्रजनन क्षमता में कमी होती है। कभी कभी पीआईडी गर्भपात या अर्बोरेशन के बाद भी हो सकती है।

**एन्डोमेट्रियोसिस:** ज्यादा गर्भपात कराने से यह होता है। अर्बोरेशन के बाद यह समस्या होती है। 20 से 29 वर्ष की महिलाएं खास तौर पर इसका शिकार ज्यादा होती हैं।

**गर्भाशय में छेद होना:** गर्भपात कराने वाली 2 से 3 प्रतिशत मरीजों में यह परेशानी होती है जो महिलाएं पहले बच्चे को जन्म दे चुकी हैं। उनमें यह ज्यादा होता है। इस समस्या से ग्रस्त मरीजों में कई बार गर्भपात के दौरान सामान्य एनेस्थेसिया भी देना पड़ता है।

**संक्रमण:** बार-बार गर्भपात कराने से महिलाओं में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं पैदा होती हैं जैसे कि ज्यादा रक्तस्राव, संक्रमण, एंडोमेट्रियोसिस से संबंधित जटिलताएं, एम्बोलिज्म, गर्भाशय में सूजन, एंडोमेट्रियोसिस शॉक, गर्भाशय ग्रीवा का चोटिल होना, रक्तस्राव आदि।



# पान का सेवन दिलाता है कई बीमारियों से राहत

पान कई बीमारियों का नाश करता है। हम यह बात मान सकते हैं कि पान के पत्तों में सुपारी, तंबाकू, चूना आदि लगा कर खाने से स्वास्थ्य संबंधी बीमारी हो सकती है। लेकिन अगर आप केवल पान के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं तो यह काफी लाभकारी हो सकता है। इसे खाने से गंभीर से गंभीर बीमारियों से निजात मिल सकता है। इसमें कई तरह के एंटीसेप्टिक गुण छिपे हैं।

## पाचन में सुधार

पान के पत्ता का वैसे माउथ फेशनर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसे चबाने से हमारे लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। जब हम इसे चबा कर खाते हैं तब हमारी लार ग्रंथि पर असर पड़ता है। इससे सलाइव लार बनने में मदद मिलती है। जो हमारी पाचन तंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपने भारी भोजन भी कर दिया है उसके बाद आप पान खा लें। इससे आपको भोजन आसानी से पच जाएगा।

## मुंह के कैन्सर से बचाव

पान सिर्फ छोटी बीमारियों के लिए ही लाभकारी नहीं है बल्कि गंभीर बीमारियों के लिए फायदेमंद है। पान के पत्ते को चबाने से मुंह के कैन्सर से बचा जा सकता है।



## माउथ-फ़ेशर

पान के पत्तों में कई ऐसे यौगिक होते हैं जो सांसों में बदबू को खत्म करता है। इसके अलावा पान में लौंग, सौंफ, इलायची जैसे विभिन्न मसाले मिलने से ये एक बेहतरीन माउथ-फ़ेशर भी बन जाता है।

## प्रजनन क्षमता

पान को सेक्स का सिंबल भी माना जाता है। सेक्स संबंध से पहले खाने से इस क्रिया का अधिक सुख लिया जा सकता है। इसलिए नए जोड़े को पान खिलाने की परंपरा भी काफी पुरानी है, इसलिए इसे खाने को दिया जाता है।

## मसूड़ों में सूजन आ जाने पर

अगर आपको मसूड़ों में गांठ, सूजन जा फिर खून आ रहा हो तो इसके लिए पान के पत्तों को पानी में उबालकर उन्हें मेश कर लें। इन्हें मसूड़ों पर लगाने से खून बहना बंद हो जाता है।

## गैस्ट्रिक अल्सर

पान के पत्ते के रस को गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव गतिविधि के लिए भी जाना जाता है जिससे गैस्ट्रिक अल्सर को रोकने में मदद मिलती है।

## मसा का उपचार

पान के पत्तों से कब्ज दूर होती है इस दवा के इस्तेमाल से बिना कोई निशान छोड़े मसा को पूरी तरह से सही किया जा सकता है।

## बाल तोड़ में सहायक

इसका आयुर्वेद में बाल तोड़ फोड़े-फुंसी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पान के पत्ते गरम करके उसमें आरंडी का तेल लगाकर फोड़े पर लगाने से आराम मिलता है।

## मधुमेह

पान पर अध्ययन यह दिखाते हैं, कि इसमें मधुमेह रोगी गुण होते हैं और यह इसके उपचार में मदद करता है।

## खांसी करें सही

पान के पत्ते में शहद लगाकर खाने से खांसी में आराम मिलता है। इसके अलावा इससे छाती से बलगम दूर किया जा सकता है।

## सिरदर्द में राहत

पान के पत्ते की एनाल्जेसिक और ठंडी विशेषताओं की वजह से ऊपर से लगाने में यह तेज सिर दर्द से राहत दिलाने में मदद करेगा।

## क्या है हॉट योगा और इसे क्यों करें

योग के अदभुत लाभों के चलते न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में योग की ख्याति है। योगासनों के कई अलग अलग प्रकार और तकनीक हैं, और इनमें से एक है हॉट योगा। हॉट योगा प्राचीन योग का ही एक एक्स्ट्रीम फॉर्म है। इसे यदि साधारण योगा



मॉडर्न रूप कहा जाए तो गलत न होगा। हॉट योगा एक रूलेमस, लेकिन मुश्किल योग है। 90 मिनट के इसके एक सत्र में 26 जटिल आसन और दो प्राणायाम शामिल होते हैं। और इसकी खास बात है कि यह एक ऐसे कमरे में होता है, जहां का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर रखा जाता है और वहां की आर्द्रता

50 प्रतिशत के आसपास होती है। शायद इस आसनों को करते समय या इन्हें करने के पश्चात इस होने वाले गर्म तापमान के कारण ही इसे हॉट योगा कहा जाने लगा होगा। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जब तक पसीना बाहर न आए, एक्सरसाइज का फायदा नहीं होता है। हालांकि इस बात के पीछे का तथ्य यह है कि पसीना इस बात का संकेत होता है कि आपने जरूर के हिसाब से शारीरिक गतिविधि की है और कैलोरी बर्न की है। शायद यही सब सोचते हुए कुछ योग एक्सपर्ट ने इस पसीना बहाऊ योग का आविष्कार कर लिया वरना तो योग करने से पसीना कम ही छूटता है। ऐसा माना जाता है कि हॉट योगा दायित्व जीवन के साथ-साथ, मस्तिष्क व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होता है, और इससे व्यक्ति तनाव मुक्त रहकर आत्मविश्वास से भरा रहता है। वैसे तो हॉट योगा के बहुत फायदे हैं लेकिन इसे करने से पहले इसके लिए ठीक ट्रेनिंग लेना बेहद जरूरी होता है।